



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 22—अक्टूबर 28, 2011 (आश्विन 30, 1933)

No.43]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2011 (ASVINA 30, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. डीपी/पर्स-1/2010/4469/3/108/2011--राष्ट्रपति, श्री के. सलीम अली, भा.पु. सेवा (एम.टी. :1978) को 28.09.2011 के पूर्वाह्न से उनकी अधिवर्षिता की आयु होने अर्थात् 30.11.2013 तक या अगले आदेशों तक, में से जो भी पहले हो, तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर निदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्रीमती एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 सितम्बर 2011

सं. ओ.दो.-6494/11-कार्मिक(डी.ए. 5)--सरकारी सेवा से स्वीच्छिक सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 30/05/2011 स्वीकार हो जाने के

फलस्वरूप, श्री मैथ्यू थोमस, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-6494), 143 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 01.09.2011 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 01.09.2011 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी निकाला जाता है।

आर.एन. मिश्रा

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. ओ.दो.-8146/11-कार्मिक(डी.ए. 5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 27/06/2011 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री भवानी सिंह मीणा, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-8146) 111 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 16.09.2011 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 16.09.2011 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

आर.एन. मिश्रा

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 04 अक्टूबर 2011

सं. ओ.दो.-3895/11-कार्मिक(एमओज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. पंकज कुमार सिंह को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,500--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 29.09.2011 (अपराह) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच., के.रि.पु. बल, भोपाल में रिपोर्ट किया है।

आर.एन. मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3894/11-कार्मिक(एमओज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. गाबिरियल टाये को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 06.09.2011 (पूर्वाह) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच., के.रि.पु. बल, सिलचर में रिपोर्ट किया है।

आर.एन. मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3844/10-कार्मिक(चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. मोहम्मद रफीक राव चिकित्सा अधिकारी (ईरला-8311), 187 बटा. केरिपु बल, को संबंधित बटालियन की नफरी से दिनांक 08.09.2011 (अपराह) से निकाला गया है। तदनुसार, इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 08.09.2011 (अपराह) से हटाया जाता है।

आर.एन. मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ई-31013(3)/10/2010/कार्मिक-II/2291--श्री योगेश कुमार शर्मा निरीक्षक/कार्यपालक के.ओ.सुब जो वर्तमान में एन.सी.बी. में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को एतद्वारा अगले निचले नियम के तहत वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में दिनांक 13.07.2011 (अपराह) से सहायक कमाण्डेन्ट/कार्यपालक के पद में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-31013(3)/10/2010/कार्मिक-II/2292--श्री पवन कुमार निरीक्षक/कार्यपालक के.ओ.सुब जो वर्तमान में एन.सी.बी. में प्रतिनियुक्ति

पर हैं, को एतद्वारा अगले निचले नियम के तहत वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में दिनांक 18.07.2011 (पूर्वाह) से सहायक कमाण्डेन्ट/कार्यपालक के पद में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

नई दिल्ली-03, दिनांक 11 अक्टूबर 2011

सं. ई-16015(2)/32/2009/कार्मिक-1/279--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक कमाण्डेन्ट (लोकल रैंक) निरीक्षक (कार्य) को रु. 15,600--39,100/- (+) ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतनमान में के.ओ.सुब में सहायक कमाण्डेन्ट (कार्य) के रैंक में नियमित पदोन्नति हाने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेन्ट कार्य में पद ग्रहण करने की तिथि
1.	सिंगाराम	एनएचपीसीएल सुबनसिरी	09.07.2011 (अपराह)
2.	जय भगवान	पीटीपीएस पतरातु	28.07.2011 (पूर्वाह)

राजीव पंत
सहायक महानिरीक्षक/कार्मिक

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 5/1/2011-सी.पी.आई.--अगस्त 2011 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) 1 अंक बढ़ कर 194 (एक सौ चौरानवें) अंकों के स्तर पर रहा।

एस.एस. नेगी
निदेशक

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. ए.19012/513/2011-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री सी.वी. पाटील, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) को स्थानापन्न आधार पर भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलोर में दिनांक 08.08.2011 (पूर्वाह) से सहायक रसायनविद् के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं ए.19011/307/2011-स्था.ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री तुहिन रे, को भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलोर में दिनांक 19.09.2011 (पूर्वाह) से क्षेत्रीय खान नियंत्रक के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कोलकाता-700091, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

सं. ए-12026/2/97-मुख्यालय--सक्षम प्राधिकारी, श्री ए. मुथुरमण को विज्ञान अधिकारी (विद्युत) के पद पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला, चेन्नई में नियमित आधार पर वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड पे रु. 4,800/- में सहर्ष पदोन्नत करते हैं जो कि दिनांक 08.06.2011 (अपराह) से प्रभावी होगा।

ए. के. सेनगुप्ता
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. पीडी/2(1)/2011-भर्ती-IV/6680--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाये गये पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्र. नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान	नियुक्ति तिथि
श्री/श्रीमती			
1. अरुण वर्गीस कुन्नेल	तकनीकी अधिकारी -डी (ग्रेड-पे)	15,600--39,100+6,600/-	20.05.2011 (पूर्वाह)
2. सबुज बरन मण्डल	तकनीकी अधिकारी -डी (ग्रेड-पे)	15,600--39,100+6,600/-	29.07.2011 (पूर्वाह)
3. विनायक विलास निकम	तकनीकी अधिकारी -डी (ग्रेड-पे)	15,600--39,100+6,600/-	05.08.2011 (पूर्वाह)
4. पडीगेला सुब्रमण्यम	तकनीकी अधिकारी -डी (ग्रेड-पे)	15,600--39,100+6,600/-	17.08.2011 (पूर्वाह)

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2188)/2011-भर्ती/823--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री मनोज

तुकाराम कोरे, सहायक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, तारापुर को इस निदेशालय में दिनांक 12.09.2011 की पूर्वाह से अगले आदेश तक वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- और ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. जगन मोहन राव
प्रशासन अधिकारी-III

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्

मुंबई-400094, दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. पऊनिप/प्रशा./I/77/3884--राष्ट्रपति महोदया, निम्नलिखित अधिकारियों को अगले आदेश तक संरक्षा अनुसंधान संस्थान (एसआरआई), परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (ईआईआरबी), कल्पावकम में उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से वैज्ञानिक अधिकारी (सी) ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	वेतन बैंड (रु.)	दिनांक
1.	श्री परशी सतीश कुमार	पीबी-3 : रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-	30.06.2010 (पूर्वाह)
2.	श्री एन. चिन्तालापति	पीबी-3 : रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-	01.07.2010 (पूर्वाह)

एस. कृष्णन
मुख्य प्रशासन अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-ब/2011/809--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, पऊवि, मुंबई की सहायक, श्रीमती कोनार पदमा अरीमुत्तुकुमार (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) को दिनांक 29 अगस्त, 2011 के अपराह से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-एम/2011/811--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, निसेसंप्रनि, मुंबई के सहायक लेखाकार, श्री राल्लापल्ली विस्वनाथम (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) को दिनांक 25 अगस्त, 2011 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- भारी पानी संयंत्र

(मणुगुरु) में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 7 अक्टूबर 2011

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/2010-वॉ-VI/835--राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (तालचेर) के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाए गए पदों पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। पदों के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन भी नीचे दर्शाए गए हैं :-

क्र. नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	भापासं	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
----------	---------------	---------------	--------	-------------------------------------

सर्वश्री

1. बिजय लक्ष्मी प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तालचेर	01.07.2010
2. सर्वजीत कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तालचेर	01.07.2010
3. सरोज कान्त परिडा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तालचेर	01.07.2010

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वेतन बैंड :

पद	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
वैज्ञानिक अधिकारी/ई	पीबी(3) 15,600--39,100/-	7,600/-
वैज्ञानिक अधिकारी/डी	पीबी(3) 15,600--39,100/-	6,600/-

के. वी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 01 अक्टूबर 2011

सं. एनएफसी/पेंशन/का.कू-3691--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री आर. पक्करीसामी वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' (वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- तथा ग्रेड वेतन रु. 8,900/-) ने दिनांक 31.08.2011 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

बी. ललिता
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500629, दिनांक 14 सितम्बर 2011

नं. पखनि-51/39/2005-पेन.--निम्नलिखित अधिकारियों ने उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुमोदन के फलस्वरूप, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में अपने-अपने पदों के भार को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख को त्याग दिया है।

क्र. नाम	पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1. डॉ. चि. सुधाकर	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	01.08.2011 (पूर्वाह्न)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
2. श्री जे. सी. सचदेवा	वैज्ञानिक अधिकारी-ई	01.09.2011 (पूर्वाह्न)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

पी. मोहन बाबु
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 04 अक्टूबर 2011

सं. ए-32016/02/2011-स्था.-I--सक्षम प्राधिकारी महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय के वायुयान इंजीनियरी निदेशालय में निम्नलिखित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (प्रयोगशाला) को दिनांक 27.09.2011 (पूर्वाह्न) से या अगले आदेश होने तक 9,300--34,800/- रुपये के वेतनमान + 4,600/- रुपये ग्रेड वेतन में इस कार्यालय में कनिष्ठ वैमानिक अधिकारी (प्रयोगशाला) के ग्रेड में प्रोन्नत करते हैं।

1. श्री सूरज भान तूर
2. श्री राकेश कुमार

विजय सिंह
उप निदेशक प्रशासन

कार्यालय मुख्य वास्तुक (न.दि.क्षे.)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 27/39/88-मु.वा. (न.दि.क्षे.)/स्था./1401-24--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अपरमहानिदेशक (वास्तुकीय), केलोनिवि, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 सितम्बर, 2011, के अपराह्न में सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होते हैं।

विजय प्रकाश राव
सम्पर्क अधिकारी, मु.वा. (न.दि.क्षे.)

सं. 27/9/2009-मु.वा. (न.दि.क्षे.)/स्था./1425-48--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार, मुख्य वास्तुक (नई दिल्ली क्षेत्र), केलोनिवि, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के अपराह्न में सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होते हैं।

विजय प्रकाश राव
सम्पर्क अधिकारी, मु.वा. (न.दि.क्षे.)

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. एफ. 48-एडी (एटी)/2011--श्रीमती आर. पी. लोके, कार्यालय अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई को पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में, दिनांक 2 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से 30 सितम्बर, 2011 अपराह्न तक (अर्थात् निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक) अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. उपरोक्त श्रीमती आर. पी. लोके की सहायक पंजीकार के रूप में नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी तथा इस श्रेणी में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से अथवा अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

आर. वी. ईश्वर
अध्यक्ष

सं. एफ. 48-एडी (एटी)/2010--आयकर अपीलीय अधिकरण के निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दी गई तालिका में उनके नामों के समक्ष कॉलम सं. 3 तथा 4 में क्रमशः दी गई तिथियों तथा पीठों में रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड तथा रु. 5,400/-, के ग्रेड पे में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में, छह माह की अवधि के लिए अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	कर्मचारियों का नाम/ पदनाम तथा पीठ(ठें) जहां वर्तमान में तैनात हैं	प्रभावी तिथि	पीठ(ठें) नियुक्ति हुई है	जहां है
1.	श्री एम. एस. पाल, कार्यालय अधीक्षक	05.09.2011	इंदौर	
2.	श्री पी. एस. सिंह, कार्यालय अधीक्षक	02.09.2011	मुंबई (मुख्यालय दिल्ली)	
3.	श्री पी. सैम्युअल, कार्यालय अधीक्षक	02.09.2011	चैन्नई	
4.	श्रीमती जी. के. कमलम्मा, प्रधान लिपिक	02.09.2011	बैंगलूरु	
5.	श्रीमती एन. के. मेनन, सहायक	02.09.2011	मुंबई	
6.	श्री वी. एन. वारंग, सहायक	02.09.2011	मुंबई	

2. उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी तथा इस श्रेणी में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं, वरिष्ठता के अभिप्राय से अथवा अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

आर. वी. ईश्वर
अध्यक्ष

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिवांग फाईनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/Sec560/2011/00232--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिवांग फाईनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

रबी बारूआ
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पुने वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. 560 (5)/146470--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पुने वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मनिक एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/100025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मनिक एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एपेक्स क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/137949--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स एपेक्स क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्नोबेरी टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/181374--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्नोबेरी टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सार्थक ट्रेवल सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/179332--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सार्थक ट्रेवल सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ए एम एच सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/132410--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए एम एच सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फारच्यून सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 अगस्त 2011

सं. 560 (5)/96948--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फारच्यून सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सोफ्टपोइन्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 अगस्त 2011

सं. 560 (5)/94764--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोफ्टपोइन्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मोनसन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. 560 (5)/070334--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोनसन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सरीशटी इन्टीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. 560 (5)/92074--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स सृष्टि इन्टीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आर्यन पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. 560 (5)/124798--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर्यन पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डीमार्क बायोटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ) सैकशन 560/2011/00079--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डीमार्क बायोटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वैनस सिक्कूरटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. 560 (5)/70105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वैनस सिक्कूरटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मरिना फैशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 अगस्त 2011

सं. 560 (5)/171037--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मरिना फैशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डिबलूगढ़ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 अगस्त 2011

सं. 560 (5)/156473--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिबलूगढ़ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एडीपी क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 सितम्बर 2011

सं. 560 (5)/178223--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडीपी क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इरोस स्पेयर पाटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. 560 (5)/216460--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इरोस स्पेयर पाटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हिमादरी प्रिंटर्स एण्ड पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)सैक्शन 560/2011/00078--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हिमादरी प्रिंटर्स एण्ड पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फ्यूचरविजन स्टील एण्ड एल्योयस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. 560 (5)/216503--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्यूचरविजन स्टील एण्ड एल्योयस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एम जी आई सी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)सैक्शन 560/2011/00163--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एम जी आई सी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इगीर इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 सितम्बर 2011

सं. 560 (5)/170415--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स इगीर इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ओडिशा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 सितम्बर 2011

सं. 560 (5)/211374--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओडिशा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स किजन स्पेयर ऑटो पार्ट्स लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/210966--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किजन स्पेयर ऑटो पार्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इमेजिन प्रीस्कूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/206634--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इमेजिन प्रीस्कूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लाईव लिंक वेब सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/162604--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लाईव लिंक वेब सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुपर प्रिफेब एण्ड रेफ्रीजरेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/2011/00043--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुपर प्रिफेब एण्ड रेफ्रीजरेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नानोवे इन्फो टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/2011/00169--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नानोवे इन्फो टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेरीटेज बिजनेस स्पोर्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/

2011/00166--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेरीटेज बिजनेस स्पोर्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्लोबल एकेडमिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली/धारा 560/2011/00163--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्लोबल एकेडमिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कम्पैक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/2011/00119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कम्पैक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स 7सीज मिडिया इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/165296--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स 7सीज मिडिया इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आर. एम. ए. मनु पाईप लाईन इक्वूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/75824--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. एम. ए. मनु पाईप लाईन इक्वूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स क्रिसवेन मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/201999--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रिसवेन मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स व्हाइट एरो लैडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/58787--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स व्हाइट एरो लैडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स विश्वकर्मा हैवी इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/42345--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विश्वकर्मा हैवी इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बेस्ट मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/37835--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेस्ट मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एसएसबी क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/181327--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसएसबी क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स माडर्न एग्रो रिसर्च फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/102347--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जे. वी. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/137315--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. वी. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेरा नेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/105309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेरा नेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम. जी. ए. कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/16573--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. जी. ए. कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नेटकॉम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/67585--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स नेटकॉम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एन. जे. एण्ड एच. एस. इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 अगस्त 2011

सं. 560(5)/30479--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन. जे. एण्ड एच. एस. इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रामा कृष्णा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/118648--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रामा कृष्णा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डोमस आर्ट गैलरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 सितम्बर 2011

सं. 560(5)/111468--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डोमस आर्ट गैलरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरीजोना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. 560(5)/211371--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की
उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि
मैसर्स अरीजोना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. आर. एस. विजय सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/
2011/00095--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3)
के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास
के अवसान पर मैसर्स एस. आर. एस. विजय सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का
नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चांगिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/
2011/115335--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3)
के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास
के अवसान पर मैसर्स चांगिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टैक्सपेयर्स क्लब्स सर्विसेस
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. 560(5)/115335--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की

उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि
मैसर्स टैक्सपेयर्स क्लब्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आत्मा साह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गंगा इनफिन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/
2011/00025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3)
के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास
के अवसान पर मैसर्स गंगा इनफिन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स निवेदिता आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन
मास के अवसान पर मैसर्स निवेदिता आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्लोबल कनवरजेन्स लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/
2011/206409--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन
मास के अवसान पर मैसर्स ग्लोबल कनवरजेन्स लिमिटेड का नाम इसके

का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परफोरमैस ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/2011/00016--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परफोरमेंस ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्वार्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. 560(5)/148162--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वार्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री गुप्तेश्वर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)सैक्शन 560/2011/00022--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री गुणेश्वर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2011

सं. कं/दिल्ली/560(5)/ईईएस-2010/9878--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	047846	मैसर्स सेवी लिजिंग एण्ड फाईनेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	144065	मैसर्स मैलोडी इंडिया इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	073979	मैसर्स एन. एस. जी. इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. 560(5)/291--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	003382	मैसर्स गरुन प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	017613	मैसर्स मुरारी इन्वेस्टमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
3.	022892	मैसर्स स्वास्तिक पेट्रोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
4.	012215	मैसर्स एस. ए. केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. आरओसी/560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	24667	मैसर्स ए जी हरबल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	33006	मैसर्स कामधेनू कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	31274	मैसर्स ब्राण्ड रिप्लैट चण्डीगढ़ प्राईवेट लिमिटेड
4.	32542	मैसर्स एस.वी.आर. एण्ड एक्जिक्यूशनल सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
5.	13529	मैसर्स कृती इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	06225	मैसर्स लक्ष्मी मैन्यूफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	02804	मैसर्स सिरहिंद खन्ना ट्रोन्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	32664	मैसर्स डैक्सट्रोस टेक्नोलॉजीज़ प्राईवेट लिमिटेड
9.	31805	मैसर्स पैनन कंपिटल एडवाइज़री प्राईवेट लिमिटेड
10.	27862	मैसर्स वी एण्ड टी कन्सल्टैन्सी सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
11.	34077	मैसर्स जस्ट एसएमएस एडवर्टाईजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
12.	08326	मैसर्स दलीप फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	07765	मैसर्स नरुला कन्सल्टैन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	09976	मैसर्स शरबत फाईनेन्स एण्ड लिजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	29083	मैसर्स गोल्डन कनेक्शन्स ऐग्रीजम प्राईवेट लिमिटेड
16.	03675	मैसर्स मरकैन्टाईल कन्सल्टैन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
17.	15210	मैसर्स एमीनेन्ट ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
18.	30700	मैसर्स फर्सट इम्मीग्रेशन पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	10611	मैसर्स पंजाब ब्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग को प्राईवेट लिमिटेड
20.	08199	मैसर्स जी.एस.ए. फाईनॉन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	09062	मैसर्स पाकिजा डिपोजिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
22.	26977	मैसर्स एम.पी. फ्लॉएवैल सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
23.	11012	मैसर्स रनौटा एग्रो इन्टरप्राइसिज़ प्राईवेट लिमिटेड
24.	23222	मैसर्स के.एस. ऑटो सेल्स एण्ड कन्सल्टैन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
25.	17139	मैसर्स के.वी.आर. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	28069	मैसर्स फीनिक्स इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
27.	31159	मैसर्स एनोज कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	30709	मैसर्स यूनाईटेड डाटासॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रौफेशनल सौल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	29893	मैसर्स मोतिया कोलोनाईसर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
30.	15469	मैसर्स ए एण्ड ए केमिकल एण्ड ग्लू वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	17785	मैसर्स नोवाडे हायर परचेज़ एण्ड डिपोज़िट्स लिमिटेड

डा. राज सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(5)/1185--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	003449	मैसर्स राजस्थान ऑटोमोटिव कार्स्टिंग्स लिमिटेड
2.	005363	मैसर्स धवन मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
3.	006554	मैसर्स हैल्थ एण्ड प्रोसपेरिटी लिमिटेड
4.	006580	मैसर्स एडवान्स इमेजिंग लिमिटेड
5.	007307	मैसर्स पटवारी ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	009688	मैसर्स डीफार्मा लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड
7.	16661	मैसर्स बीकानेर मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
8.	16680	मैसर्स संजू ग्रेनीमार्मो प्राईवेट लिमिटेड
9.	16787	मैसर्स जालोरी इनोवेशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
10.	17299	मैसर्स श्री भगवती ड्रिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	017423	मैसर्स कम्पलीट एजूकेशन डिज़ाइन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	017815	मैसर्स हाईसीज ट्रेडलिंक्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	017984	मैसर्स सांगियाजी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	017985	मैसर्स सांगियाजी प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
15.	017987	मैसर्स सांगियाजी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
16.	021010	मैसर्स जाहरवीर रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
17.	021092	मैसर्स राजोरिया रियल एस्टेट डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	021391	मैसर्स अक्सदीप इलैक्ट्रोमेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	021401	मैसर्स एयरोनेट नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	021749	मैसर्स ब्लू बैल डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	022554	मैसर्स रशी बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
22.	022590	मैसर्स रिलाएबल प्रेमिसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
23.	022611	मैसर्स आयुश कोमोडिटी ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	026376	मैसर्स ड्रीम रिटेल्स सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	025857	मैसर्स लॉयल बिल्डग्रीन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	025538	मैसर्स गौरी नन्दन बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
27.	011052	मैसर्स टी सी एस कन्सलटेन्सी सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
28.	006428	मैसर्स जेएम फिनकॉन प्राईवेट लिमिटेड
29.	008413	मैसर्स सुगम इण्डिया इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	004544	मैसर्स अग्रवाल होजरी एण्ड अपैरल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	011103	मैसर्स खण्डेलवाल इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	014644	मैसर्स आदीनाथ केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	028760	मैसर्स धनवन्तरी एजूमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
34.	015856	मैसर्स एवीजी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	026888	मैसर्स अमरनाथ कम्प्यूजिसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	021440	मैसर्स श्रीपति आर्ट.एण्ड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
37.	017730	मैसर्स इजीअर्न नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
38.	015454	मैसर्स जिलिंक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
39.	022483	मैसर्स वण्डर ओनेक्स मार्मो प्राईवेट लिमिटेड
40.	026964	मैसर्स ग्रीन ओरा बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
41.	006363	मैसर्स पीलवा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	012065	मैसर्स धौलपुर लिजिंग एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
43.	012361	मैसर्स वीनस सरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	025578	मैसर्स सीतारा फेब प्राईवेट लिमिटेड
45.	027976	मैसर्स ब्राइट विजन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
46.	029128	मैसर्स श्री कृष्णाराधिका मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	010510	मैसर्स शाल्ली स्टोन्स एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	022424	मैसर्स अमन बिल्डस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
49.	007005	मैसर्स रूमे प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
50.	016467	मैसर्स नक्षत्रा एक्सपोटेड प्राईवेट लिमिटेड

एस.पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(5)/1187--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	010425	मैसर्स लोटस सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	001373	मैसर्स जयपुर फेरस एण्ड नॉन फेरस कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	006305	मैसर्स प्रातः काल पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
4.	010539	मैसर्स देव रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15960	मैसर्स इन्के एनवायरो कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	020185	मैसर्स सेंट प्लाईवूड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
7.	002611	मैसर्स प्रभात इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
8.	019984	मैसर्स कैशीश ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	019989	मैसर्स शुभम अम्बिका प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
10.	019992	मैसर्स प्रीज ड्रीम्स एक्विजिशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	019177	मैसर्स आर्यवत इन्फोमिडिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	019101	मैसर्स मातृकृपा जनरल ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	022047	मैसर्स मनहावी बिल्डकॉम प्राईवेट लिमिटेड
14.	022039	मैसर्स गुलमोहर बिल्डटेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	019184	मैसर्स आरती ग्राइडिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	019632	मैसर्स एक्सोल्यूट इन्व्हेस्टेन्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
17.	019612	मैसर्स अमूल्य इन्व्हेस्टेन्स कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
18.	019544	मैसर्स सांझ सवेरा इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
19.	021861	मैसर्स मलिक टेक्नोलोजी मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
20.	21864	मैसर्स सुपर सेन्सेशनल सिक्युरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
21.	21854	मैसर्स सूर्या नारायणम सर्जिटिक प्राईवेट लिमिटेड
22.	021842	मैसर्स मरूधर इन्व्हेस्टेन्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
23.	021836	मैसर्स खेतू मर्केन्टाइल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
24.	019562	मैसर्स दिलीप फार्मो प्राईवेट लिमिटेड
25.	019072	मैसर्स सेक्यूर लाईफ इन्व्हेस्टेन्स कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	018995	मैसर्स नाइस टेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
27.	019133	मैसर्स एन. वी. ओ. कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	019119	मैसर्स गोल्डसाइन ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	019158	मैसर्स श्री सावरिया ट्रेडलिंक प्राईवेट लिमिटेड
30.	019187	मैसर्स थार टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
31.	021827	मैसर्स सनसाइन हेल्पलाइन ऑटो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
32.	021815	मैसर्स सोनू बिल्डस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	021828	मैसर्स जगदम्बाकृपा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	021943	मैसर्स एस सिस सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
35.	021885	मैसर्स मृत्युञ्जय कॉलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	020065	मैसर्स सुपीरियर मशीनरी स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	019082	मैसर्स माहेश्वरी एण्ड केदावत कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
38.	021952	मैसर्स भास्कर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
39.	019966	मैसर्स एनरविन एनजी मैनेजमेन्ट एण्ड इलैक्ट्रीकल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
40.	022223	मैसर्स अंकित लुब्रिकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	022016	मैसर्स सूत्रधार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	022049	मैसर्स मून प्लानेट ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
43.	021947	मैसर्स मंगलम प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	021941	मैसर्स कुमार गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	021984	मैसर्स अमित मनीष गीता इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	021095	मैसर्स ओहम प्रोपकॉन प्राईवेट लिमिटेड
47.	019990	मैसर्स खुशिया इन्शोरेन्स कन्सलटेन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
48.	019470	मैसर्स ब्लूम पैशन कमिटमेन्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
49.	019406	मैसर्स लियोकोर्न एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	019469	मैसर्स सुमित्रा एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
51.	019568	मैसर्स सनराईज हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	019609	मैसर्स जुगल किशोर वेद फाईनांशियल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	018937	मैसर्स एपेक्स टाईल्स एक्सपोर्ट इण्डिया लिमिटेड
54.	022022	मैसर्स न्यूएज इन्फोटेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
55.	019316	मैसर्स श्रीनाथ एस्सेरिज प्राईवेट लिमिटेड
56.	019506	मैसर्स कतुस्का होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	019487	मैसर्स सनसिटी स्टोन क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
58.	019482	मैसर्स विटेक फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
59.	019806	मैसर्स स्मार्ट मेकर इन्शोरेन्स कन्सलटेन्ट्स एण्ड मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
60.	019449	मैसर्स मार्स गोल्डन ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
61.	019557	मैसर्स कैप्टन ग्रिट क्रश प्राईवेट लिमिटेड
62.	019670	मैसर्स सागर बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
63.	019551	मैसर्स त्रिवेणीधाम कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	019709	मैसर्स श्री शरण्य डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	019920	मैसर्स अनुपा पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
66.	022253	मैसर्स खण्डल बिल्डर्स एण्ड कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
67.	022192	मैसर्स साईसहारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
68.	022255	मैसर्स मून प्लानेट कन्सलटेन्सी एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
69.	019635	मैसर्स सेलर्स शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
70.	019409	मैसर्स विशनोई एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
71.	019674	मैसर्स डेनियल फार्मा एथिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	021871	मैसर्स हर्षवर्धन बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
73.	019764	मैसर्स मेहर एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड
74.	019412	मैसर्स नीलम बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
75.	019907	मैसर्स लेकसिटी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	019163	मैसर्स श्री नकोडा मिनकेम प्राईवेट लिमिटेड
77.	019602	मैसर्स बालाजी नमकीनवाला प्राईवेट लिमिटेड
78.	019980	मैसर्स ओम स्वास्तिक कोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	019974	मैसर्स ट्रांससेंड टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
80.	019570	मैसर्स गिरधर गोपाल कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
81.	019572	मैसर्स विदूषी ऑडियो कैसेट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	019192	मैसर्स ओशीन कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	019212	मैसर्स राठी मेडीसन्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	019601	मैसर्स ट्रोफिक हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
85.	019919	मैसर्स प्रीत बुड प्राईवेट लिमिटेड
86.	019941	मैसर्स थिंक पिक ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	019942	मैसर्स ओम सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
88.	019555	मैसर्स रॉयल मैन फोर्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
89.	019199	कृष्ण मुरारी कांसेप्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
90.	020166	लाईव इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
91.	023921	मैसर्स सिद्धी विनायक ग्रीनसिटी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	020332	मैसर्स क्यू फिस्कल्स मीरा शेयर्स कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	020625	मैसर्स विकास टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
94.	002172	मैसर्स श्री जिनेन्द्र टैक्सटाइल मिल प्राईवेट लिमिटेड
95.	004627	मैसर्स गुडलक कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
96.	019708	मैसर्स मेहता बुक हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
97.	019717	मैसर्स टाईमलैस डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	011557	मैसर्स एपेक्स फिनसैक प्राईवेट लिमिटेड
99.	019665	मैसर्स ब्रह्मश्री एडवरटाइजमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
100.	019706	मैसर्स जैन अरोरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
101.	027222	मैसर्स कल्याण बिल्डवीजन प्राईवेट लिमिटेड
102.	018590	मैसर्स जीनोम रेमेडिज प्राईवेट लिमिटेड
103.	023168	मैसर्स कोणार्क लैण्डबेस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	032320	मैसर्स भगवती मिनटेक प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	028254	मैसर्स शिव सुरेन्द्र गौर मल्टीट्रेड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
106.	024764	मैसर्स शेखावाटी मैनपावर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
107.	022517	मैसर्स मान लैण्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
108.	021629	मैसर्स हीमाद्री टूर्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	008253	मैसर्स जयपुर गार्डन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
110.	016970	मैसर्स आर. पी. इलैक्टेक प्राईवेट लिमिटेड
111.	013528	मैसर्स सुरभीत गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	023904	मैसर्स सिद्धी विनायक बिल्डडेव प्राईवेट लिमिटेड
113.	027426	मैसर्स रिलायएबल नेचूरल एक्वा टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
114.	027049	मैसर्स एपेक्स बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
115.	011377	मैसर्स भैरो बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	020021	मैसर्स स्काई मार्मो स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	026394	मैसर्स मीना गोम्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	002611	मैसर्स प्रभात एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
119.	020712	मैसर्स रतन ज्योत फार्म प्राईवेट लिमिटेड
120.	021686	मैसर्स रावैड कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	018330	मैसर्स क्लासिक बिट्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	011378	मैसर्स दुर्गेश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	011376	मैसर्स च्वाइस प्रेमिसेज प्राईवेट लिमिटेड
124.	032463	मैसर्स स्टार रेडिक्स एजूटेक प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
जयपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/3/1189--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	023715	मैसर्स रॉयल डायमण्ड लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	012515	मैसर्स ट्रिपल 'ए' कम्बाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	013571	मैसर्स सांघी केमटेक प्राईवेट लिमिटेड
4.	013676	मैसर्स कोमल मार्मो प्राईवेट लिमिटेड
5.	013677	मैसर्स सर्वेश्वर कोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	013694	मैसर्स ग्रिन्थ एण्ड सन्स कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
7.	013699	मैसर्स सिंघल ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	013704	मैसर्स देव-गुरु कृपा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	013736	मैसर्स टोपका कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	013845	मैसर्स सांगानेर क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	013856	मैसर्स श्री गोपी कृष्णा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	013862	मैसर्स श्री धाम मिनकेम प्राईवेट लिमिटेड
13.	013891	मैसर्स श्री केशरियाजी फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
14.	013928	मैसर्स खूशबू बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
15.	013967	मैसर्स शेखावटी एग्रो फोरेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
16.	014071	मैसर्स डर्बी डबल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	014098	मैसर्स सन्नीस फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	014150	मैसर्स गुप्त गंगा बोरवैल प्राईवेट लिमिटेड
19.	014158	मैसर्स डून्डलोड फोर्ट होटल प्राईवेट लिमिटेड
20.	014328	मैसर्स सिंघराज एग्रो कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	014336	मैसर्स श्री श्याम फैंबटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	014397	मैसर्स स्पराउट्स फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	014442	मैसर्स उन्नत मिनरल वॉटर प्राईवेट लिमिटेड
24.	014451	मैसर्स सिलीकोन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	014511	मैसर्स उदयपुर एग्रोनोमिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
26.	014518	मैसर्स शैल गिरी फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
27.	014541	मैसर्स त्रिनेत्र सर्वे एण्ड डिटेक्टिव कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	014546	मैसर्स वर्धमान जिनिंग एण्ड प्रेसिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	014549	मैसर्स यादवी मैकेनिकल प्राईवेट लिमिटेड
30.	014562	मैसर्स धीरज ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	014592	मैसर्स श्री कृष्णा इण्डिया इन्फ्रा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	014625	मैसर्स शाकम्भरी इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	014647	मैसर्स सिरोही माइक्रोन्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	014736	मैसर्स शोभना फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	014775	मैसर्स उदयमान जोजोबा प्लांटेशन एण्ड एगो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	014791	मैसर्स शारविन होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	014810	मैसर्स शिखर केप इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
38.	014887	मैसर्स उमंग सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	014896	मैसर्स एनविरो कन्सेप्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
40.	014927	मैसर्स शर्मा परिवहन कार्गो मोरेज प्राईवेट लिमिटेड
41.	014980	मैसर्स सोना फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	015018	मैसर्स धरोहर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	015186	मैसर्स सौंकिया एगोफोरेस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
44.	015306	मैसर्स सेंगुइन कम्प्यूटर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	015329	मैसर्स यशस्वी एजुकेशनल एण्ड हैल्थ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	015409	मैसर्स धन लक्ष्मी प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	015431	मैसर्स समिधा कम्प्युनिकेशन एण्ड इन्फोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
48.	015433	मैसर्स दवेन्द्रा कम्प्यूटर सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
49.	015470	मैसर्स श्री बालाजी अर्थमूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	015510	मैसर्स वर्मा ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	015547	मैसर्स विक्रम टेक्सप्रिंट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	015596	मैसर्स ग्रेट ओक सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	015608	मैसर्स श्रीराम लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	015626	मैसर्स जी. डी. आर. मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	015753	मैसर्स गोरा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
56.	015892	मैसर्स एसआर एडिबल ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
57.	015932	मैसर्स सरित इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
58.	015980	मैसर्स धनवर्षा कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	016018	मैसर्स ईएमटी वे मास्टर प्राईवेट लिमिटेड
60.	016025	मैसर्स ट्राईडेन्ट होसेज प्राईवेट लिमिटेड
61.	016034	मैसर्स एसपीवी सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	016068	मैसर्स श्री गणपति ग्रीन ऑजज प्राईवेट लिमिटेड
63.	016070	मैसर्स ट्रांसटेक आईटी सोल्यूशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
64.	016081	मैसर्स दीपचेत एगो प्राईवेट लिमिटेड
65.	016110	मैसर्स वॉकगेस्ट पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	016118	मैसर्स कॉइजेन फार्म फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	016167	मैसर्स टचिनो एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
68.	016217	मैसर्स वेवोसोफ्ट टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
69.	016241	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर बिस्किट्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	016303	मैसर्स कपिराज टेप्स एण्ड फोईल्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	016351	मैसर्स यू एन मी एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
72.	016397	मैसर्स शिवशक्ति पोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	016399	मैसर्स विजाशानी ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	016406	मैसर्स श्री लक्ष्मी कृपा कंस्ट्रक्शन एण्ड मेटिरियल सप्लायर प्राईवेट लिमिटेड
75.	016511	मैसर्स त्रिवेणी बिल्डस्टेड्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	016512	मैसर्स श्री राम त्रिवेणी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	016557	मैसर्स सागर दर्शन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
78.	016638	मैसर्स श्री गिरधर मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
79.	016641	मैसर्स श्री श्याम शेयर प्राईवेट लिमिटेड
80.	016681	मैसर्स देव प्रकाश कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
81.	016703	मैसर्स ई सोफ्ट लेन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
82.	016711	मैसर्स इवन्स सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
83.	016750	मैसर्स विनायक बिल्ड-डेव प्राईवेट लिमिटेड
84.	016789	मैसर्स शिव शक्ति ट्रेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	016804	मैसर्स हेबिल नेट प्राईवेट लिमिटेड
86.	016811	मैसर्स विनायक कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
87.	016845	मैसर्स एसके हॉस्पिटल एण्ड केन्सर रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
88.	016893	मैसर्स श्री धानोप इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	018297	मैसर्स सामली दूस एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	016916	मैसर्स सरस सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	018425	मैसर्स श्री बी. ओ. आर्ट प्राईवेट लिमिटेड
90.	016978	मैसर्स गायत्री नमिता होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	018442	मैसर्स यश वेबनेट एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	017027	मैसर्स डिजीटल डायल सायबरकॉम प्राईवेट लिमिटेड	124.	018605	मैसर्स गीजगढ़ क्लब्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	017072	मैसर्स देवशा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	125.	018629	मैसर्स टू हार्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
93.	017119	मैसर्स रुस्टिक माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड	126.	018724	मैसर्स शुभम कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	017135	मैसर्स कामायनी ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	127.	018837	मैसर्स तोमर फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	017161	मैसर्स ड्रीम चार्मर सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	128.	018963	मैसर्स एस 4 टैक्स फेब प्राईवेट लिमिटेड
96.	017197	मैसर्स विन केयर बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड	129.	018971	मैसर्स यादव पैराडाईज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
97.	017219	मैसर्स श्री मूर्ति स्लीपर्स प्राईवेट लिमिटेड	130.	019147	मैसर्स इली मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
98.	017221	मैसर्स फतेहपुर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	131.	019259	मैसर्स विस्ता सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
99.	017237	मैसर्स श्री नाकोडा कम्प्यूसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	132.	019278	मैसर्स श्री राम लुब्रिकेन्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	017257	मैसर्स वेडिंग बैड कवर प्राईवेट लिमिटेड	133.	019502	मैसर्स जयपुर बुलियन प्राईवेट लिमिटेड
101.	017293	मैसर्स श्री लेडीलिश गेस्ट हाऊस प्राईवेट लिमिटेड	134.	019512	मैसर्स जेमार्ट ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	017328	मैसर्स एच. आर. बी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	135.	019616	मैसर्स साबा हवेली होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	017350	मैसर्स शिवकृपा फर्नीचर पैलेस प्राईवेट लिमिटेड	136.	019619	मैसर्स विराज एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	017369	मैसर्स विकास पोलीसेक्स प्राईवेट लिमिटेड	137.	019790	मैसर्स दीन ऑटोमोबाईल प्राईवेट लिमिटेड
105.	017375	मैसर्स वैशाली इन्टरनेट प्राईवेट लिमिटेड	138.	020083	मैसर्स संजय टैक्स-स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
106.	017455	मैसर्स कल्वाडिज इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	139.	020128	मैसर्स वण्डर आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	017489	मैसर्स दविन्सी एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड	140.	020133	मैसर्स सौरभ राय बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	017516	मैसर्स श्री सेनार पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	020136	मैसर्स एम्पायर इन्फोसोफ्ट टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
109.	017587	मैसर्स श्री गणेश सिटी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	142.	020138	मैसर्स शिव महिमा इंश्योरेंस कन्सलटेन्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
110.	017606	मैसर्स श्री बालाजी एग्रोपेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	143.	020165	मैसर्स कामधेनू लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
111.	017609	मैसर्स स्पर्धा सुमन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	144.	020180	मैसर्स वीकेन्द ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	017723	मैसर्स वेबफैमिली नेटसेल्स प्राईवेट लिमिटेड	145.	020192	मैसर्स खोखर डेवलपर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	017801	मैसर्स ईगल आईड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	146.	020194	मैसर्स विष्णु बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
114.	017904	मैसर्स गैलेक्सी ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड	147.	020329	मैसर्स गणपति शेयरन्यूजऑनलाइन कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
115.	017967	मैसर्स गेटवे एजुटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड	148.	020331	मैसर्स त्यागी कैरियर एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	018091	मैसर्स विजन स्मार्ट मार्केटिंग सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	149.	020364	मैसर्स शोभा शर्मा कंस्ट्रक्शंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
117.	018179	मैसर्स ढाका प्लेसमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	150.	020427	मैसर्स सन्निस स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	018202	मैसर्स वास्तु टाऊन प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड	151.	021448	मैसर्स अक्स लाईटिंग प्राईवेट लिमिटेड
119.	018238	मैसर्स ग्लाइड्स बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड			
120.	018243	मैसर्स ट्रीपल ए जेम्स रफ एण्ड बीड्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
152.	021702	मैसर्स उमंग तरंग मार्केटिंग एण्ड कन्सलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
153.	026317	मैसर्स शिवकृपा सजिटिक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
154.	024106	मैसर्स एड्यूस लैब्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
अहमदाबाद, दिनांक 15 अप्रैल 2011

सं. आरओसी/अहमदाबाद/560(5)/ईईएस/2011—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	029319	मैसर्स आलोक ऑर्गेनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	003674	मैसर्स अभि एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
3.	030549	मैसर्स एसेस कार्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	007973	मैसर्स आदेश्वर प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	045118	मैसर्स अक्षर मूवीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	052036	मैसर्स अल्फा ट्रांसफ्यूजन प्राईवेट लिमिटेड
7.	053081	मैसर्स अमरकुंज कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
8.	016806	मैसर्स अंकुर फेब्रिक्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
9.	023221	मैसर्स अशीमा पोलीफेब प्राईवेट लिमिटेड
10.	019615	मैसर्स बंसरी फाईनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
11.	020107	मैसर्स बरोडा फिस्कल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	025218	मैसर्स बोस्को फूड्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	001567	मैसर्स बीटीएक्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	021697	मैसर्स बल्कपलो कन्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	029363	मैसर्स चेतनकुमार गजेरा एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
16.	006750	मैसर्स क्रोमा इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
17.	048381	मैसर्स क्रिस्टल रोल्ड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	047884	मैसर्स सीवीएस फैबटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	016033	मैसर्स धवल सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	021371	मैसर्स ध्रुव फेब प्राईवेट लिमिटेड
21.	020821	मैसर्स फोकस एण्ड एंकर कॉन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
22.	049559	मैसर्स गृह सर्जन कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
23.	005417	मैसर्स गुरुकृपा प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	043629	मैसर्स एच एम पटेल फूड्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
25.	040068	मैसर्स जय पुरुषोत्तम पोलीस्टर प्राईवेट लिमिटेड
26.	009539	मैसर्स केतीकेम इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
27.	042704	मैसर्स कोकिल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	049550	मैसर्स कोशर टिम्बरलैंड प्राईवेट लिमिटेड
29.	017204	मैसर्स लाईफ प्लास्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	023021	मैसर्स महादेव रामचन्द्रा जगुतस बुक्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	029580	मैसर्स मैथिली सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
32.	027062	मैसर्स मेन्दी पार्सल बोर्ड्स लिमिटेड
33.	015410	मैसर्स मल्टी इण्डस्ट्रीयल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	024495	मैसर्स नर्मदा अक्वा प्राईवेट लिमिटेड
35.	018249	मैसर्स नरूला एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
36.	052422	मैसर्स नेचर रीयल एस्टेट इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	015463	मैसर्स न्यूकोन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	003699	मैसर्स निस्टल फाऊण्ड्रीज प्राईवेट लिमिटेड
39.	003191	मैसर्स नोबल पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	017120	मैसर्स पद्मावती केस्टोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	045814	मैसर्स पंचरत्ना गोल्ड एण्ड ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	014403	मैसर्स फिनीक्स कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	041704	मैसर्स पावरसॉफ्ट इन्वेन्टिव कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	024277	मैसर्स प्रिक्योर्ड टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	035276	मैसर्स प्रियंका फैशन प्राईवेट लिमिटेड
46.	045442	मैसर्स रामा मेटकोक प्राईवेट लिमिटेड
47.	051171	मैसर्स रिनायसेन्स हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
48.	013675	मैसर्स रोस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
49.	041655	मैसर्स सम्पूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	024529	मैसर्स समृद्ध केपिटल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
51.	023819	मैसर्स शीलहोम एयरटेक प्राईवेट लिमिटेड
52.	022555	मैसर्स श्रीरामनाथ केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	038548	मैसर्स श्रीनाथजी फाईनकास्ट प्राईवेट लिमिटेड
54.	049722	मैसर्स सिद्धार्थ ग्लासटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	048162	मैसर्स सोनीसाइटर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
56.	007712	मैसर्स स्थापत्य कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	011844	मैसर्स सुरेश सोप्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	046860	मैसर्स सुशील ओसा इक्वूपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	035528	मैसर्स स्वागत डाईंग एण्ड प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड
60.	048879	मैसर्स वेलोसिटी सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	020159	मैसर्स विक्रम मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	013600	मैसर्स विशाल रिक्रिएशन कल्ब प्राईवेट लिमिटेड
63.	032095	मैसर्स जवेरात वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड

आर. के. डालमिया
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 9 मई 2011

सं. आरओसी/अहमदाबाद/560(5)/ईईएस/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	046025	मैसर्स एजाइलेट स्टॉक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	043510	मैसर्स एंजल डेवलपर प्राईवेट लिमिटेड
3.	006069	मैसर्स भद्रवर्शी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
4.	011498	मैसर्स गोकुल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	029368	मैसर्स के. राज कारपोरेट कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
6.	011381	मैसर्स किरजा कन्सट्रक्शन एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	005405	मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	050456	मैसर्स मेसऑयल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
9.	031347	मैसर्स ओरबिट पार्क इन प्राईवेट लिमिटेड
10.	012799	मैसर्स ओवरसीज सिक्यूरिटीज एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
11.	017581	मैसर्स पद्मावती केस्टोर केमिकल्स इन्डिया लिमिटेड
12.	023839	मैसर्स पाश्वा फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
13.	029202	मैसर्स पेनी मेटस्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
14.	029506	मैसर्स पॉपुलर व्हीलर फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
15.	036329	मैसर्स प्रवीण टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	024757	मैसर्स राजदूत रोड केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	002511	मैसर्स रोनक टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	043833	मैसर्स समभावी हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	006071	मैसर्स शान्तनीर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
20.	028313	मैसर्स श्रीधर सिक्यूरिटीज एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
21.	028312	मैसर्स श्रीमंत सिक्यूरिटीज एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
22.	028317	मैसर्स श्रीवसा सिक्यूरिटीज एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड
23.	020115	मैसर्स ट्रेन्डी टेक्नोटेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
24.	045369	मैसर्स जीटेक फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

आर. के. डालमिया
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 9 मई 2011

सं. आरओसी/अहमदाबाद/560(5)/ईईएस/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	042201	मैसर्स आकाश इन्फोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
2.	035413	मैसर्स अभि स्पाइसीस प्राईवेट लिमिटेड
3.	052644	मैसर्स एक्यू इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	030378	मैसर्स एक्यूमार्क इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	015575	मैसर्स अचल एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	049220	मैसर्स अदानी हैबीटेड्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	042439	मैसर्स एग्रीसर्च डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	048365	मैसर्स अमन एमब्रोडरी प्राईवेट लिमिटेड
9.	028347	मैसर्स अम्बिका साइन्टीफिक ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
10.	043049	मैसर्स अनुग्रह इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	015167	मैसर्स अपार रबर प्राईवेट लिमिटेड
12.	017738	मैसर्स एरोमा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	011414	मैसर्स आरती सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	026516	मैसर्स अरूणा फाईन फेब प्राईवेट लिमिटेड
15.	051649	मैसर्स अस्का हाई टेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	058305	मैसर्स एशजेन नेट प्राईवेट लिमिटेड
17.	015872	मैसर्स बी. के. पटेल एण्ड कम्पनी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	046567	मैसर्स बालाजी परिवहन इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
19.	011896	मैसर्स भंडारिया फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	036866	मैसर्स बरोडा हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
21.	040277	मैसर्स बेनाफोर इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	007728	मैसर्स बीजल इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	038461	मैसर्स बीटू इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
24.	016145	मैसर्स ब्लेजोनप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
25.	043643	मैसर्स ब्रेन बारगेन लर्निंग सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	000132	मैसर्स बाइट्स इन्टरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
27.	034449	मैसर्स केनन फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	045568	मैसर्स चेराज एग्जिम प्राईवेट लिमिटेड
29.	008104	मैसर्स सिटीजन प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	012191	मैसर्स सी एन पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
31.	046780	मैसर्स क्रेनियम टेक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	004885	मैसर्स क्राउन फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	052908	मैसर्स डिसाइड बेट्टी मेन्यूफेक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
34.	033856	मैसर्स डीपोम आयल एण्ड प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	014020	मैसर्स डेकोरा प्रोफाइल्स एण्ड पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	008301	मैसर्स डीलक्स डायमंड्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	016539	मैसर्स धनुरधारी इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
38.	030502	मैसर्स डायमंड शेयर ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	035281	मैसर्स डिम्पल फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
40.	042864	मैसर्स दीवा इकोटेक केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	044015	मैसर्स दिव्यादीप सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	042902	मैसर्स दीवाली एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	052632	मैसर्स डीएमटी टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
44.	010658	मैसर्स डोली एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	043352	मैसर्स डीआरके सिन केम प्राईवेट लिमिटेड
46.	045963	मैसर्स डी वी डी डायमंड प्राईवेट लिमिटेड
47.	009927	मैसर्स इक्युटी बेरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	046364	मैसर्स एरीका इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	007704	मैसर्स एसकेन लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
50.	044343	मैसर्स एस के ट्रेडलिंक प्राईवेट लिमिटेड
51.	052736	मैसर्स फेबियेन्ट ग्लोबल लिमिटेड
52.	003288	मैसर्स फमाग पोलीकेम प्राईवेट लिमिटेड
53.	005264	मैसर्स फोर्ज फास्टनर्स गुजरात प्राईवेट लिमिटेड
54.	044227	मैसर्स गेलोर प्रिंटिंग प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
55.	024776	मैसर्स गांधी केपिटल प्राईवेट लिमिटेड
56.	019956	मैसर्स गरूडा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	036949	मैसर्स गरूडा हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
58.	011674	मैसर्स जीआईएल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
59.	011675	मैसर्स जीआईएल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
60.	027502	मैसर्स गोकुला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
61.	024797	मैसर्स गोल्डलिंक फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	049171	मैसर्स ग्रीनवेज होस्टिकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
63.	036126	मैसर्स ग्रेमलीन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
64.	034013	मैसर्स गुजरात अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
65.	012475	मैसर्स गुजरात सरजीमेड इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड	96.	031964	मैसर्स मारुति प्रोजेक्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	044222	मैसर्स हेमरत्ना ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड	97.	010630	मैसर्स मौलिन क्वेरी एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	014105	मैसर्स हेमटेक्स सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	98.	049699	मैसर्स मेडिकल टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
68.	017239	मैसर्स हीरल आर्ट सिल्क प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	99.	019732	मैसर्स मीनाक्षी ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
69.	033733	मैसर्स हिमदर्शक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	100.	024290	मैसर्स मेट्रो फार्मा लिमिटेड
70.	023746	मैसर्स हाई टेक थर्मोसेट्स प्राईवेट लिमिटेड	101.	045999	मैसर्स मिदास फोरम्युलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	024415	मैसर्स हीतेश स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	102.	028007	मैसर्स मोहन्द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	014234	मैसर्स आइडल फाइबर्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	103.	014999	मैसर्स मोनीला फिनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
73.	007329	मैसर्स इलाशी टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	104.	019360	मैसर्स नन्देसरी इन्डस्ट्रीयल एडीटीव्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	017476	मैसर्स इमप्लस एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड	105.	007961	मैसर्स नटराज कलर केम प्राईवेट लिमिटेड
75.	039899	मैसर्स इनामदार लेन्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	106.	048927	मैसर्स नेचर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
76.	025146	मैसर्स जेनीसम इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	107.	029661	मैसर्स नवकार एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
77.	025223	मैसर्स जरीवाला फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड	108.	017109	मैसर्स नीधी फिनस्टोक लिमिटेड
78.	032999	मैसर्स जयअजय ऑरगेनाइजर्स एण्ड प्लेसमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	109.	034271	मैसर्स नीलवी कोस्मोफार्मा प्राईवेट लिमिटेड
79.	036833	मैसर्स जयदीप फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	051833	मैसर्स निमिशा फोरम्युलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	051433	मैसर्स जीतु सी फूड प्राईवेट लिमिटेड	111.	009054	मैसर्स नीतीन उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
81.	017013	मैसर्स जौली पेक वेल लिमिटेड	112.	047586	मैसर्स न्युकलीयस एग्री बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
82.	013378	मैसर्स जौली टी प्रोसेसर्स एण्ड पेकर्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	008401	मैसर्स पदमनाभ पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	047200	मैसर्स कानन फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	114.	034050	मैसर्स पदमावतीकृपा सेल्स ऑरगेनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	024214	मैसर्स कन्कावती एग्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	115.	035117	मैसर्स पंचारीया जीन प्राईवेट लिमिटेड
85.	029077	मैसर्स केल्वीन कोपर लिमिटेड	116.	042755	मैसर्स पराग एम्ब्रोडरी प्राईवेट लिमिटेड
86.	036206	मैसर्स कीर्ती प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	044036	मैसर्स परिश्रम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	041980	मैसर्स किशन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	038646	मैसर्स पेनीस्युला हाइजीन एग्री इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
88.	041496	मैसर्स क्रान्ती पम्पस प्राईवेट लिमिटेड	119.	037055	मैसर्स पायोनीयर आइसनेट प्राईवेट लिमिटेड
89.	052863	मैसर्स एम आर सिनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	120.	042211	मैसर्स प्राप्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
90.	024996	मैसर्स महावीर सिविल इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	049766	मैसर्स प्रतिभा एज्युकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	053216	मैसर्स मनन कॉमर्शियल व्हीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	050023	मैसर्स प्राइमेक्स प्लाई प्राईवेट लिमिटेड
92.	049644	मैसर्स मनन एन्टरटेन्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	123.	027281	मैसर्स पुश्पक फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	052923	मैसर्स मनन लोजिस्टीक इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	124.	006452	मैसर्स क्वालीटीन गुजरात प्राईवेट लिमिटेड
94.	032753	मैसर्स मानेकलाल मनसुखभाई इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	125.	041731	मैसर्स रेडियन्स टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	050818	मैसर्स मारफतिया ओयसीस प्राईवेट लिमिटेड	126.	026209	मैसर्स राय फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
127.	037977	मैसर्स राय इमीग्रेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
128.	006840	मैसर्स रावल एग्रो बिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
129.	046245	मैसर्स रिक्लुज होस्पीटेलीटीज प्राईवेट लिमिटेड
130.	045639	मैसर्स रिगोट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
131.	023618	मैसर्स आरइएल फाइनैस लिमिटेड
132.	051719	मैसर्स रेशलाइफ हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
133.	019867	मैसर्स रोक फोर्ड केमिकल्स इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
134.	026664	मैसर्स रुद्रा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	038037	मैसर्स सफल सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
136.	021000	मैसर्स साई यार्न प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	031156	मैसर्स साईलीला टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	043344	मैसर्स सेलीयन्ट लोन रिकवरी ऑपरेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	038487	मैसर्स साल्वी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
140.	043580	मैसर्स सम्भाव माइक्रो आई टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
141.	027417	मैसर्स समेश फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	019447	मैसर्स सरफ टेक्सो ट्वीस्ट प्राईवेट लिमिटेड
143.	045861	मैसर्स सेरीटोन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	044666	मैसर्स स्कोरपियस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
145.	005749	मैसर्स शाह फार्मास्युटिकल प्राईवेट लिमिटेड
146.	046166	मैसर्स शमशुद्दीन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	016281	मैसर्स शशी हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	008023	मैसर्स श्री राधा टेक्सइन्ड प्राईवेट लिमिटेड
149.	048289	मैसर्स श्री रंग अवधुत हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
150.	039008	मैसर्स श्रीकृष्णा कमपोजिट प्राईवेट लिमिटेड
151.	046053	मैसर्स श्री साईकृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
152.	047315	मैसर्स श्रीबलंतसाई ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
153.	041313	मैसर्स शुभलाभ एग्रो सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
154.	012448	मैसर्स स्कायलाइन टूरीजम प्राईवेट लिमिटेड
155.	035929	मैसर्स स्मार्ट कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	027422	मैसर्स सोम सन्स फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	027420	मैसर्स सोम विहार फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
158.	034248	मैसर्स स्पन इन्फोनेट प्राईवेट लिमिटेड
159.	046487	मैसर्स स्टेमटेक ट्रेड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
160.	023581	मैसर्स सुकान मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
161.	043269	मैसर्स सुपथ लर्निंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
162.	011366	मैसर्स सुपरकिंग इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	035366	मैसर्स सुरक्षा फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
164.	019997	मैसर्स सुराना डाइंग एण्ड प्रिन्टींग प्राईवेट लिमिटेड
165.	011844	मैसर्स सुरेश सोप्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	035812	मैसर्स सुवास मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
167.	013260	मैसर्स तेजल पेपेटेक प्राईवेट लिमिटेड
168.	007629	मैसर्स तिरूमाला सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	013421	मैसर्स तोरन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	032587	मैसर्स उमिया फिनलीज लिमिटेड
171.	020078	मैसर्स युनिटी ट्रान्सलिंग प्राईवेट लिमिटेड
172.	009753	मैसर्स वी के पटेल ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
173.	048936	मैसर्स वी टी जीनिंग एण्ड प्रेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
174.	046670	मैसर्स वातसल्य कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
175.	036147	मैसर्स वलसाड डिस्ट्रीक वेस्ट मैनेजमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
176.	045499	मैसर्स वाइब्रेन्ट रिफोयल्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	004105	मैसर्स विजय इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
178.	036982	मैसर्स विश्नु शिवास कवेरी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	053374	मैसर्स विश्वास टेक्स सिन्थेटिक प्राईवेट लिमिटेड
180.	010815	मैसर्स वेलकम वीक्स प्राईवेट लिमिटेड
181.	038443	मैसर्स जुमलिंग नेट प्राईवेट लिमिटेड
182.	038835	मैसर्स योनप्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
183.	033677	मैसर्स युवराज रियल्टी लिमिटेड
184.	049338	मैसर्स जेनीथ एन्टरटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड

आर. के. डालमिया
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
अहमदाबाद, दिनांक 20 मई 2011

सं. आर.ओ.सी. अहमदाबाद 560(5)/ई.ई.एस 2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	043195	मैसर्स ए बी एम लोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
2.	009721	मैसर्स आचार्य वायर प्राईवेट लिमिटेड
3.	050265	मैसर्स एकमे मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	022021	मैसर्स एक्शन लाउन्ड्री प्राईवेट लिमिटेड
5.	004510	मैसर्स अलंकार इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
6.	019680	मैसर्स अमी इलेक्ट्रो एप्लायंसिस प्राईवेट लिमिटेड
7.	005939	मैसर्स अनुपूर्ती इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
8.	038832	मैसर्स एनिथिंग ओनलाइन प्राईवेट लिमिटेड
9.	052773	मैसर्स आस्था ब्रिडिंग फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	045472	मैसर्स एटलस ब्रास एण्ड कोपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	030064	मैसर्स केम्ब्रिज पेपर एण्ड स्टेशनरीस लिमिटेड
12.	040341	मैसर्स कोस्मोस इन्फोटेन्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
13.	042061	मैसर्स साईगेट कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
14.	045158	मैसर्स दाबेली सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	020985	मैसर्स गेबरियल होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	048926	मैसर्स गजानन एन्टरटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड
17.	051912	मैसर्स गुजरात लेजार्ट प्राईवेट लिमिटेड
18.	029236	मैसर्स हरसिद्ध केरियर प्राईवेट लिमिटेड
19.	011939	मैसर्स हाई गुन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	015724	मैसर्स हाई बोन्ड टेक्सोलेन प्राईवेट लिमिटेड
21.	009450	मैसर्स जोन सन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	042428	मैसर्स कांडला लिक्विड स्टोरेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
23.	047805	मैसर्स कयाम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
24.	046115	मैसर्स केएचवी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
25.	042209	मैसर्स किनले नेटलंक प्राईवेट लिमिटेड
26.	034672	मैसर्स किशन टायर्स एण्ड कार सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
27.	043466	मैसर्स महक स्वीट्स एण्ड केटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	043098	मैसर्स मारुति फोर्ज प्राईवेट लिमिटेड
29.	041512	मैसर्स मारुति मूवीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	053295	मैसर्स नव गुजरात एग्रो सिड्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	037207	मैसर्स नवरंग होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	028839	मैसर्स निशा डाईस एण्ड इन्टरमिडियेट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	044694	मैसर्स ओपस मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	017119	मैसर्स ओरियन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	039275	मैसर्स ओस्टीयर मेरीटाइम प्राईवेट लिमिटेड
36.	034005	मैसर्स परमेश्वर एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड
37.	007331	मैसर्स पिंटू ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	040723	मैसर्स पूजन विक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	042545	मैसर्स प्रथम बुक्स एण्ड पिरायडिकल प्राईवेट लिमिटेड
40.	025012	मैसर्स प्रिमियम बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
41.	019552	मैसर्स राज फिलटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	017589	मैसर्स राजदीप लेबोरेट्री लिमिटेड
43.	005991	मैसर्स रिब इन्जीनियरिंग लिमिटेड
44.	038197	मैसर्स सर्जन पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड
45.	031148	मैसर्स शांत बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
46.	046671	मैसर्स शलोक इलेक्ट्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
47.	028148	मैसर्स श्री प्रभु डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	015940	मैसर्स श्रेष्ठ लेन्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	002136	मैसर्स श्री ब्रिजराज इन्वेस्टमेंट्स एण्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
50.	042107	मैसर्स श्री हरि ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
51.	012608	मैसर्स श्री हीरालक्ष्मी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	012445	मैसर्स श्रीराम एल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
53.	030573	मैसर्स सिलो हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
54.	026549	मैसर्स स्माल एन्टरप्राइजर्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
55.	029244	मैसर्स स्पंदन फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	022361	मैसर्स सनराईज फिनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
57.	036689	मैसर्स सिनरजिस एक्सपोजीशन लिमिटेड
58.	035636	मैसर्स विजय एग्रोप्लाट प्राईवेट लिमिटेड
59.	047721	मैसर्स विक्रांत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
60.	016314	मैसर्स युग सारथी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	045331	मैसर्स युरी काटन सिड्स आयल प्राईवेट लिमिटेड
62.	021228	मैसर्स जेक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

आर. के. डालमिया
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 20 मई 2011

सं. आर.ओ.सी./अहमदाबाद/560(5)/ई.ई.एस/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	042717	मैसर्स अल ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
2.	005078	मैसर्स आंगन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
3.	034805	मैसर्स अलीफ मिनरल केम प्राईवेट लिमिटेड
4.	028598	मैसर्स अल्का कोटस्पीन लिमिटेड
5.	041086	मैसर्स एलायस ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
6.	045139	मैसर्स अमर पेस्टीसाइड्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	002512	मैसर्स अमर टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	028067	मैसर्स अमित ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड
9.	023214	मैसर्स अनादकत होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	048199	मैसर्स आनंद प्रोफेशनल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
11.	002655	मैसर्स अनिल पॉलीथीलीन इण्डस्ट्रीयल प्राईवेट लिमिटेड
12.	005077	मैसर्स अनुगत इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
13.	018500	मैसर्स एरीयन मेरीटाईम एण्ड लॉजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
14.	012839	मैसर्स एशोरजेन्ट ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
15.	052418	मैसर्स एस्ट्रोन सेरा प्राईवेट लिमिटेड
16.	013226	मैसर्स अवधेष बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	035199	मैसर्स बी एम पटेल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
18.	046427	मैसर्स बेसिक ई ट्रेड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
19.	042844	मैसर्स ब्रिलियन्ट लर्निंग रिसोर्सिज प्राईवेट लिमिटेड
20.	002470	मैसर्स सी एच मिन केम प्राईवेट लिमिटेड
21.	048032	मैसर्स सी जी डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
22.	019409	मैसर्स सिटीजन कॉयल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
23.	051657	मैसर्स सिट्रोन लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	037174	मैसर्स कलर पॉलीब्लेन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	045054	मैसर्स क्रायो एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	020809	मैसर्स क्रिस्टल वूवन फैब्रिक्स लिमिटेड
27.	011005	मैसर्स डी एन सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	029528	मैसर्स डाकले एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
29.	031532	मैसर्स दलाल एण्ड शाह सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	025584	मैसर्स दानीश प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
31.	009420	मैसर्स दास्तान लीजिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड
32.	033118	मैसर्स दीपशांति फिनस्टॉक लिमिटेड
33.	048781	मैसर्स देवम एल्युम प्राईवेट लिमिटेड
34.	020490	मैसर्स देवदर्शन एग्रोफार्म प्राईवेट लिमिटेड
35.	027320	मैसर्स धनलक्ष्मी सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
36.	043455	मैसर्स धरतीदीप इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	032916	मैसर्स दिनेश केपिटल प्राईवेट लिमिटेड
38.	029933	मैसर्स दिव्या पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
39.	029164	मैसर्स दिव्यराज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
40.	033713	मैसर्स दिव्यशक्ति मेटल क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
41.	029447	मैसर्स एम्बिशना फायनेंस लिमिटेड
42.	034030	मैसर्स फर्स्ट लाईट केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	044636	मैसर्स फोरमैन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	038543	मैसर्स गलेक्सी माईक्रो इन्फोकॉम्प प्राईवेट लिमिटेड
45.	020201	मैसर्स गेलेक्सी टेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
46.	002418	मैसर्स गांधी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	002848	मैसर्स गांधी साल्ट प्राईवेट लिमिटेड
48.	033585	मैसर्स गिरीराज इलेक्ट्रीकल प्राईवेट लिमिटेड
49.	042753	मैसर्स ग्लाइडर मर्केन्टाइल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
50.	028670	मैसर्स ग्राफ डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	023655	मैसर्स गुजरात एक्सीलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	039623	मैसर्स गुजरात पोसीतरा पोर्ट प्लांटेशन लिमिटेड
53.	038657	मैसर्स गुरुदेव मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
54.	041801	मैसर्स एच एच एग्री सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
55.	018338	मैसर्स हालार होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
56.	038015	मैसर्स हरभोले डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
57.	023038	मैसर्स हार्दिक फिनस्टॉक सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
58.	011396	मैसर्स हरि ओम कंस्ट्रक्शन एण्ड वाटर प्रूफिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
59.	035794	मैसर्स हरूदस गारमेंट प्राईवेट लिमिटेड
60.	016489	मैसर्स हर्ष सिल्क टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	017829	मैसर्स हेमसन मेटालिका प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड
62.	045983	मैसर्स इचपोर हाइटिक पार्क प्राईवेट लिमिटेड
63.	037653	मैसर्स आई टी आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
64.	019871	मैसर्स कमलानी सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	030960	मैसर्स कपाडिया शैल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	031434	मैसर्स कावन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	028746	मैसर्स केल्वीन पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	045084	मैसर्स केशव मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
69.	037416	मैसर्स किनटेक इन्फोसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
70.	021303	मैसर्स कोठारी सिक्युरिटीज लिमिटेड
71.	017157	मैसर्स कृष्णा नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
72.	020703	मैसर्स कृति टेक्सचराइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	022391	मैसर्स लोटस डेकोर प्राईवेट लिमिटेड
74.	008741	मैसर्स लक्स ऑटो ड्राईव एण्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	041417	मैसर्स महर्षि कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	019654	मैसर्स महावीर रेसिन्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	043702	मैसर्स मेकसन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
78.	014652	मैसर्स मंगला हाऊसिंग लेण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	041973	मैसर्स मंगरोला केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	033897	मैसर्स मेराथन लुब्रिकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	018741	मैसर्स मास्टर धन फायनेंशियल एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसिस लिमिटेड
82.	004895	मैसर्स मेडी सर्जिकेम प्राईवेट लिमिटेड
83.	015595	मैसर्स मेहता एयर ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
84.	038978	मैसर्स मेमसाब प्रिंट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
85.	018396	मैसर्स मेरठवाल इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
86.	033421	मैसर्स मोक्ष यार्न डायनामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	038727	मैसर्स माइनेटिव कॉम इन्टरनेट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
88.	041969	मैसर्स एन जी होम अप्लायसिस प्राईवेट लिमिटेड
89.	030866	मैसर्स नारायण हीट कन्ट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड
90.	038327	मैसर्स नर्मदा मल्टीपाईप्स लिमिटेड
91.	013537	मैसर्स नसन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	040506	मैसर्स नवजीवन कॉन्ट्रेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
93.	027997	मैसर्स नीलराज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
94.	045874	मैसर्स ओसीए आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
95.	031664	मैसर्स ओगडजी प्लानेशन प्राईवेट लिमिटेड
96.	046483	मैसर्स ओमशिव एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
97.	033620	मैसर्स ओरनेट पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
98.	011134	मैसर्स ओवरसीज इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
99.	038026	मैसर्स पी आर एगो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	013204	मैसर्स पगडी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	020438	मैसर्स परमसुख टेक्सच्युराईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	029069	मैसर्स पूजन फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	019209	मैसर्स प्रभु एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	022727	मैसर्स प्रेरणा एडवर्टाईजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
105.	002066	मैसर्स प्रवीण इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
106.	041983	मैसर्स प्रिसाइज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
107.	016752	मैसर्स प्रोटेक होम अप्लायंसिस लिमिटेड
108.	007562	मैसर्स प्रोटेक इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनान्स लिमिटेड
109.	038278	मैसर्स पिरामीड आर्गेनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	011410	मैसर्स क्वालीटेक्स टेक्सटयुराइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	007298	मैसर्स राजावीर फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	009943	मैसर्स राजावीर हाऊसिंग फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	039670	मैसर्स रिहा इन्फो सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	027232	मैसर्स एस के शेयर सर्विसिस लिमिटेड
115.	030351	मैसर्स सबरस क्रिएटिव मार्केटिंग लिमिटेड
116.	021278	मैसर्स सबरस मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
117.	049671	मैसर्स सहाना एविएशन प्राईवेट लिमिटेड
118.	037157	मैसर्स साहिल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	047665	मैसर्स सहजानन्द मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	029516	मैसर्स साई डिजाइनर टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	048082	मैसर्स समक्षी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
122.	037723	मैसर्स समुद्र इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
123.	007510	मैसर्स सनराज सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	031446	मैसर्स सरिता ऑयल मिल प्राईवेट लिमिटेड
125.	033764	मैसर्स सर्वोदय मेटल टयुब्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	005351	मैसर्स सौम्या इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
127.	007842	मैसर्स सोराष्ट्र कास्टील प्राईवेट लिमिटेड
128.	039339	मैसर्स शालीमार हाईड्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	029659	मैसर्स शतकशियो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	033570	मैसर्स शिखर गुजरात फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	044398	मैसर्स शिल्पा लाईफ स्टाईल प्राईवेट लिमिटेड
132.	039089	मैसर्स शिराली कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
133.	016540	मैसर्स शिवम् डाईस एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	021346	मैसर्स शिवांग फरनेसस एण्ड ओनर्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	012084	मैसर्स श्रदा ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	022661	मैसर्स श्री अग्रसेन फायनेंसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
137.	038571	मैसर्स श्री अंबिका एग्रो एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
138.	019947	मैसर्स श्री अक्षरपति टेक्सुराइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	009224	मैसर्स श्री शांतिनाथ सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	015054	मैसर्स श्रेयास स्टील एण्ड एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
141.	041545	मैसर्स श्री गुरुदेव ऑटो सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड
142.	023878	मैसर्स श्री कृष्णा लीजिंग एण्ड फायनान्स लिमिटेड
143.	039071	मैसर्स श्री प्रदीप पॉलीकरब प्राईवेट लिमिटेड
144.	045990	मैसर्स श्री रंग टेक्सटाईल्स लिमिटेड
145.	032665	मैसर्स शुभसागर बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
146.	044107	मैसर्स श्याम क्रिएटर्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	037681	मैसर्स सिधी इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
148.	010820	मैसर्स सिल्पा कोन्सोलिडेटेड फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	022837	मैसर्स सिराली टेक्सटयुराइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	012235	मैसर्स स्क्युबिड एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
151.	031887	मैसर्स सोलरसन इवासाकी लाईटिंग लिमिटेड
152.	037628	मैसर्स सोलीड सोर्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
153.	004286	मैसर्स स्पार्क स्टील रोलिंग प्राईवेट लिमिटेड
154.	047914	मैसर्स स्टाईल्स एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
155.	045784	मैसर्स सन फ्लावर फर्टिलिटी क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
156.	021828	मैसर्स सन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	025582	मैसर्स सुन्दरम प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
158.	048679	मैसर्स सनशाईन क्लासिक एज्युकेशन एण्ड मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
159.	029237	मैसर्स सुपरटेक कारटून्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	020308	मैसर्स सुरील स्टील मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	042224	मैसर्स सुवर्ण मल्टीलिंक सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
162.	002521	मैसर्स स्वेता डिटरजेंट एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	043018	मैसर्स तारा इन्शोरेन्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
164.	045788	मैसर्स तथागत केम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	046015	मैसर्स थान सेज डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
166.	020778	मैसर्स दी कांडला बल्क कार्गो कैरियर लिमिटेड
167.	030601	मैसर्स युनिटी डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	045988	मैसर्स वी के कार्गो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
169.	044470	मैसर्स वी केर मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
170.	021910	मैसर्स वर्धमान कंस्ट्रक्शन एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	012342	मैसर्स वासुपूज्य कन्सल्टेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
172.	036205	मैसर्स वी आर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड
173.	025168	मैसर्स विभूति आक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
174.	028725	मैसर्स वेलनोन आर्गेनाइजर्स लिमिटेड
175.	041513	मैसर्स वाइड विंग्स मल्टीलिंक प्राईवेट लिमिटेड
176.	048097	मैसर्स विनर्स ट्रेड एक्सपो प्राईवेट लिमिटेड
177.	041885	मैसर्स योगेश्वर जिलियम प्राईवेट लिमिटेड

आर. के. डालमिया
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./अहमदाबाद/560(5)/ई.ई.एस/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	045483	मैसर्स अभीवंदन एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
2.	013804	मैसर्स आचमन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
3.	028507	मैसर्स आदेश्वर एग्रोइस्पात प्राईवेट लिमिटेड
4.	029070	मैसर्स आदिनाथ फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
5.	032895	मैसर्स एश्वर्या मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	020101	मैसर्स अजीत बिल्डस्टील प्राईवेट लिमिटेड
7.	026842	मैसर्स अक्षर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	021555	मैसर्स आनंदवाटिका प्लानटेशन प्राईवेट लिमिटेड
9.	043475	मैसर्स अवि बल्क कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
10.	000740	मैसर्स भावनगर रेयोन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	005263	मैसर्स कारडिग स्पेशलिस्ट गुजरात प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	038643	मैसर्स डी एम ज्वैलरी मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	028307	मैसर्स देवांशी सिक्युरिटीज एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	033600	मैसर्स धुरु कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
15.	037361	मैसर्स घुरू कार्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	026290	मैसर्स डायमण्ड मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	039389	मैसर्स इलेक्ट्रो फाउण्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	008701	मैसर्स फन्डीस मंगलवाडी प्राईवेट लिमिटेड
19.	039434	मैसर्स जी जी पटेल रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
20.	033175	मैसर्स गायत्री कृपा रसायन प्राईवेट लिमिटेड
21.	021556	मैसर्स गोकुलधाम प्लानटेशन प्राईवेट लिमिटेड
22.	021776	मैसर्स गुजरात एल्युमीना एण्ड बाक्साइट लिमिटेड
23.	016284	मैसर्स गुजरात मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल कन्सल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
24.	028628	मैसर्स हरीसन्स यार्नस प्राईवेट लिमिटेड
25.	029794	मैसर्स हेमराज मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
26.	046749	मैसर्स हाई बोन्ड सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड
27.	039020	मैसर्स इन्सोनेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
28.	032976	मैसर्स कोठारी कोम्पयुटेक प्राईवेट लिमिटेड
29.	038566	मैसर्स लैब टेक इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	018948	मैसर्स महावीर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
31.	013728	मैसर्स मनोज शाह होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	014083	मैसर्स मोनिका फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	020756	मैसर्स नेचरस केयर प्राईवेट लिमिटेड
34.	009903	मैसर्स नीलु इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	020413	मैसर्स नीरज टेक्सटुराइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	013989	मैसर्स ऑस्कर फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	031635	मैसर्स पार्थसारथी रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
38.	033923	मैसर्स पोसम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	027644	मैसर्स राजश्री फिनस्टॉक्स लिमिटेड
40.	045627	मैसर्स राइजिंग सन ब्यूटी प्राईवेट लिमिटेड
41.	034914	मैसर्स राइजिंग सन इन्फोनेट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
42.	011566	मैसर्स रूपल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
43.	037556	मैसर्स सेन्सीटीव हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
44.	020711	मैसर्स शेशव वाटिका प्राईवेट लिमिटेड
45.	038366	मैसर्स शिवम् कोम्पलेक्स लिमिटेड
46.	015024	मैसर्स श्री राधाकृष्णा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स गुजरात प्राईवेट लिमिटेड
47.	012193	मैसर्स श्यामल प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
48.	013287	मैसर्स सुशोनी ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	039217	मैसर्स सुयोग हाईड्रोलिक्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	000241	मैसर्स तेजाजी परसुराम खारावाला प्राईवेट लिमिटेड
51.	044961	मैसर्स उरमी ममरा एण्ड राईस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	026224	मैसर्स विंसर प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	040684	मैसर्स वितरक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
54.	050686	मैसर्स वेल्थ लिंक सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड

आर. डी. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./अहमदाबाद/560(5)/ई.ई.एस/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	033676	मैसर्स आयुष आयरनफैब प्राईवेट लिमिटेड
2.	041662	मैसर्स एडोन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
3.	010519	मैसर्स एजेएस एग्रो मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	010034	मैसर्स आलवेल रड मड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	023140	मैसर्स अल्पेश मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	041987	मैसर्स अमेया हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	015693	मैसर्स अंकुर फिलामेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	031084	मैसर्स आरतीसन्स इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	049408	मैसर्स भरूच दहेज रोड लिमिटेड
10.	045850	मैसर्स चिंतन कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	016138	मैसर्स सीटीजन टेक्नोफैब प्राईवेट लिमिटेड
12.	019435	मैसर्स कोमेट सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	008775	मैसर्स डी धीरूभाई इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
14.	039652	मैसर्स धवल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
15.	036544	मैसर्स धूमकेतु बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	047885	मैसर्स डीपेक्ष टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	040044	मैसर्स डोलफीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
18.	031751	मैसर्स ईलाईट चिल्ड्रन पार्क प्राईवेट लिमिटेड
19.	014864	मैसर्स एक्सेल ट्रेवल्स लिमिटेड
20.	052461	मैसर्स फर्स्ट केयर ब्रोकिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
21.	026855	मैसर्स फ्रेशट्रोप प्लानटेशन प्राईवेट लिमिटेड
22.	039769	मैसर्स फ्रन्टेक कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	014302	मैसर्स गेलेक्सी फलेट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	015065	मैसर्स गेलेक्सी शो बिज प्राईवेट लिमिटेड
25.	034526	मैसर्स घनश्याम फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
26.	018932	मैसर्स ग्लोन लैबोरेट्री प्राईवेट लिमिटेड
27.	021190	मैसर्स गुजरात एयरवेस लिमिटेड
28.	004909	मैसर्स गुजरात डील बिट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	032623	मैसर्स गुजरात नेशनल हाईवेस लिमिटेड
30.	004918	मैसर्स गुजरात प्रिंसिपलियस स्टोन प्राईवेट लिमिटेड
31.	004912	मैसर्स गुजरात सान ब्रिलियन्ट प्राईवेट लिमिटेड
32.	004916	मैसर्स गुजरात सिंगल कट पोलीशर प्राईवेट लिमिटेड
33.	024972	मैसर्स एच बी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	046093	मैसर्स एच एस मशीन वेल प्राईवेट लिमिटेड
35.	032554	मैसर्स हीरा तुलसी फिनलीस प्राईवेट लिमिटेड
36.	043609	मैसर्स हीट आर्यन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
37.	041927	मैसर्स इनोवेशन टाईम सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
38.	031995	मैसर्स इनोवेटिव पॉलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
39.	033569	मैसर्स ईश्वरलाल कोल प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	71.	024015	मैसर्स प्रशांतदीप प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
40.	010111	मैसर्स जे डी कम्पोजिट प्राईवेट लिमिटेड	72.	029988	मैसर्स प्रशिल एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
41.	050569	मैसर्स जय माडी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	014347	मैसर्स रास गरबा एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
42.	047941	मैसर्स जैनम गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	74.	038326	मैसर्स रघुवीर मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	030220	मैसर्स जसल रियलटीज प्राईवेट लिमिटेड	75.	012149	मैसर्स रघुवीर मार्केटिंग लिमिटेड
44.	017354	मैसर्स जयराज वीवस प्राईवेट लिमिटेड	76.	042056	मैसर्स राजेन्द्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
45.	043017	मैसर्स कनेरिया ग्लास एण्ड सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	042355	मैसर्स रामायण फौब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	038570	मैसर्स कर्णावती डेकोग्रिल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	78.	030384	मैसर्स रमैया आर्गेनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	020649	मैसर्स खुशबु पॉलीस्टर प्राईवेट लिमिटेड	79.	025536	मैसर्स रेनबर्ट डेनिम अपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	036861	मैसर्स किंगस्टन टेकनोफैब प्राईवेट लिमिटेड	80.	029808	मैसर्स रेलीन हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
49.	040439	मैसर्स कुबेर नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	81.	022873	मैसर्स रिधी फिनस्टॉक एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	039211	मैसर्स एल जे इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	82.	013367	मैसर्स रूषभ केमिकल्स लिमिटेड
51.	018574	मैसर्स एलएमपी हाऊसिंग एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	030986	मैसर्स रूषभ प्लास्टी केम प्राईवेट लिमिटेड
52.	007081	मैसर्स मेक सेविंग्स एण्ड फायनान्स लिमिटेड	84.	010000	मैसर्स सहयोग इन्टरमीडियट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	028304	मैसर्स महाशक्ति ट्रान्सट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	85.	042703	मैसर्स समरपन होस्पिटलटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
54.	006321	मैसर्स महेन्द्रा टेक्नोकास्ट प्राईवेट लिमिटेड	86.	038121	मैसर्स सेटेलाईट होस्पिटल एण्ड फिजियोथेरेपी रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
55.	031304	मैसर्स मनाली डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	87.	031698	मैसर्स सर्ववेल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	009210	मैसर्स मनीश गम इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	88.	018368	मैसर्स श्री राम कृष्णा रेयोन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	020417	मैसर्स मेचवेल इन्टरप्राइज लिमिटेड	89.	026743	मैसर्स श्रीजीत प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
58.	016807	मैसर्स मेहताब इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	90.	012243	मैसर्स सोनम टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	027513	मैसर्स मरक्युरी सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड	91.	048828	मैसर्स स्पेस ओप्टिकल प्राईवेट लिमिटेड
60.	042202	मैसर्स मिलाकरोन क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड	92.	040890	मैसर्स स्पान सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	023533	मैसर्स मित्सु इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	93.	021849	मैसर्स स्पाईस सिटी प्राईवेट लिमिटेड
62.	016623	मैसर्स माइक्रो सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	94.	031358	मैसर्स सुमन रियल्टीज प्राईवेट लिमिटेड
63.	038019	मैसर्स नेट वर्ल्ड कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	95.	023268	मैसर्स सुपर मार्ट होल्डींग्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	049153	मैसर्स न्यु आईडिया सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	96.	006803	मैसर्स सुप्रिम सबमरसिबल मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
65.	023264	मैसर्स न्यु टेक्सफिल प्राईवेट लिमिटेड	97.	031595	मैसर्स स्वाति प्लांट केयर प्राईवेट लिमिटेड
66.	047980	मैसर्स ओर्गेन टेलीसर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	98.	051103	मैसर्स टी एण्ड टी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	040034	मैसर्स पार्शवा रिटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	99.	022267	मैसर्स तत्काल टेलीफोन्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	007234	मैसर्स पावागढ सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड	100.	006937	मैसर्स टीम हाईड्रोलिक्स एण्ड एलाईड मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड
69.	032251	मैसर्स प्युपिल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	101.	009793	मैसर्स टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीयल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	000174	मैसर्स पूर्णा पॉलीकण्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
102.	010277	मैसर्स तिरुपति वार्पस प्राईवेट लिमिटेड
103.	023546	मैसर्स तोरल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	006822	मैसर्स ट्रान्सलिक प्राईवेट लिमिटेड
105.	032318	मैसर्स उमा फ्लो सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड
106.	031327	मैसर्स युनाईटेड ग्रेवयर्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	053075	मैसर्स उन्नति ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
108.	035246	मैसर्स वायुपुत्र साल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	014916	मैसर्स वरदक्ष सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	035245	मैसर्स विधनहर्ता साल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	035236	मैसर्स विक्रम साल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	034320	मैसर्स विपुल ट्रेडलिक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	035237	मैसर्स वीर साल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	035300	मैसर्स वरचुयल साउंड प्राईवेट लिमिटेड
115.	023135	मैसर्स योगी फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
116.	040175	मैसर्स जिरकोन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

आर. डी. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्याम मिंगफेंग अन्ब्रेसिव प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी./58770/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्याम मिंगफेंग अन्ब्रेसिव प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गुडईयर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी./4305/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुडईयर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स निकेतन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. आर.ओ.सी./4290/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निकेतन होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि, दिनांक 26 सितम्बर 2011

सं. नोटिस 560(5)/एफटीई-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	13885	मैसर्स चिरामेल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	14646	मैसर्स इम्पलस ऑनलाइन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	14808	मैसर्स शास्ता पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	16209	मैसर्स टी वी एन जनरल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	17517	मैसर्स विश्वाज्योती ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	18029	मैसर्स पीएसके तंगलज हैल्थ केयर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
7.	19035	मैसर्स एक्सेल हैपर होम-मार्ट केरला प्राईवेट लिमिटेड
8.	19650	मैसर्स सरोनी दूर एण्ड रिसोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
9.	20225	मैसर्स एमएसजेके कमोडिटी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
10.	20381	मैसर्स केरला सरवोद्या आर्युवेदा फार्मा एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	18.	23503	मैसर्स रैटरूट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	21833	मैसर्स पालातिंगल कंस्ट्रक्शन एण्ड रियाल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	19.	24221	मैसर्स श्रिष्टी मैनपॉवर एण्ड एलाइड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
12.	22292	मैसर्स कृपा टच्स पैकेजिंग कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	20.	24671	मैसर्स टीपीएम प्रोपर्टीज एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	22317	मैसर्स जीआरवी डवलपर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	21.	24966	मैसर्स नोवाटूर ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	22729	मैसर्स लोगोन इण्डिया एटी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	22.	25235	मैसर्स केएस गोल्ड प्राईवेट लिमिटेड
15.	23033	मैसर्स एआरबी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	23.	25340	मैसर्स बाबु लोडजिंग्स होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	23090	मैसर्स अलैन होटल्स एण्ड टूरिस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	24.	25801	मैसर्स टेकरिसन्स टेक्नॉलोजिस एण्ड सॉफ्टवेयर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
17.	23352	मैसर्स टीटीया एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			

के. जी. जोसफ जॉक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 3rd October 2011

No. DP/PERS.I/2010/4469/3/108/2011—The President is pleased to appoint Shri K. Saleem Ali, IPS (MT : 1978) as Additional Director in the Central Bureau of Investigation, New Delhi with effect from the forenoon of 28.09.2011 until his superannuation i.e. on 30.11.2013 or till further orders, whichever event takes place earlier.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 16th September 2011

No. O.II-6494/2011-Pers(DA-5)—Consequent on acceptance of his notice dated 30.05.2011 for voluntary retirement from Service Shri Mathew Thomas, Assistant Commandant (IRLA-6494) of 143 Bn CRPF, relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st September, 2011. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.09.2011 (FN).

R. N. MISRA
DIG (Pers)

The 29th September 2011

No. O.II-8146/2011-Pers(DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 27.06.2011 for Resignation from Service Shri Bhawani Singh Meena, Assistant Commandant (IRLA-8146) of 111 Bn CRPF relinquished the charge of his post on the forenoon of 16.09.2011. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 16.09.2011 (FN).

R. N. MISRA
DIG (Pers)

The 4th October 2011

No. O.II-3895/11-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Pankaj Kumar Singh as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- Plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the afternoon of 29.09.2011 till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Bhopal.

R. N. MISRA
DIGP (Pers)

No. O. II.3894/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Gabriel Taye as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 Plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 06.09.2011 till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Silchar.

R. N. MISRA
DIGP (Pers)

No. O. II.3844/10-Pers (MOs)—Consequent on acceptance of his Resignation from Government Service Dr. Mohd Rafik Rao, (IRLA-8311), Medical Officer, 187 Bn CRPF relinquished the charge of his post on the Afternoon of 8th Sept, 2011. Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force wef 08.09.2011 (AN).

R. N. MISRA
DIGP (Pers)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 30th September 2011

No. E-31013(3)/10/2010/Pers. II/2291—Shri Yogesh Kumar Sharma, Inspector/Exe of CISF who is presently on deputation to Narcotic Control Bureau, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Assistant Commandant in CISF in the Pay Band-3 Rs.15,600 - 39,100/- plus Grade Pay Rs.5,400/- (revised) with effect from 13.07.2011(AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-31013(3)/10/2010/Pers. II/2292—~~Shri Pawan Kumar~~, Inspector/Exe of CISF who is presently on deputation to Narcotic Control Bureau, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Assistant Commandant in CISF in the Pay Band-3 Rs.15,600 - 39,100/- plus Grade Pay Rs.5,400/- (revised) with effect from 18.07.2011(FN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

New Delhi-03, the 11th October 2011

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/279—The President is pleased to promote the following Asstt. Commandant (Local Rank), Inspector/Exe on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/(Exe), in the pay scale of

Rs. 15,600—39,100+Grade Pay of Rs. 5,400/- on regular basis in CISF with effect from the date noted against each :—

S. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption as AC/Exe Rank
1.	Shri Singhara Ram	NHPCL, Subansiri	09.07.2011/AN
2.	Shri Jai Bhagwan	PTPS, Patratu	28.07.2011/FN

RAJEEV PANT
Asst. Inspector General/Pers.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 30th September 2011

No. 5/1/2011-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 increased by 1 point and stood at 194 (One hundred & Ninety Four) for the month of August, 2011.

S. S. Negi
Director

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 29th September 2011

No. A-19012/513/2011-Estt.A—On the recommendation of the departmental Promotion Committee Shri C.V. Patil, Sr. Tech. Assistant (Chemistry) is promoted to the post of Asstt. Chemist in Indian Bureau of Mines, Bangalore w.e.f. 08.08.2011 (F/N)

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
For Controller General

No. A-19011/307/2011-Estt.A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Tuhin Ray, to the post of Regional Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Bangalore w.e.f. 19.09.2011 (F.N.)

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
For Controller General

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

Kolkata-91, the 21st December 2010

No. A-12026/2/97-HQ—The Competent Authority is pleased to Promote Shri A. Muthuraman, to the post of Scientific Officer (Electrical), in National Test House, Chennai

on regular basis in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 08.06.2011 (A.N.)

A.K. SENGUPTA
Dy. Director (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 28th September 2011

No. PD/2(1)/2011/R-IV/6680—President is pleased to appoint the under mentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the posts, in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders:—

Sl. No.	Name	Appointed as	Pay Band (Rs.)	Date of appointment
	Shri			
1.	Arun Varghese Kunnel	Technical Officer 'D'	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	20.05.2011 (FN)
2.	Sabuj Baran Mondal	Technical Officer 'D'	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	29.07.2011 (FN)
3.	Vinayak Vilas Nikam	Technical Officer 'D'	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	05.08.2011 (FN)
4.	Padigela Subramanyam	Technical Officer 'D'	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	17.08.2011 (FN)

SHAILAJA PRAKASHAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 27th September 2011

No. DCSEM/A/3(2188)/2011-Rectt./823—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Shri Manoj Tukaram Kore, Assistant, BARC, Tarapur as Assistant Personnel Officer in this Directorate in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- (corresponding pay band) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- from the forenoon of 12.09.2011 until further orders.

B. JAGAN MOHAN RAO
Administrative Officer-III

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400094, the 29th September 2011

No. AERB/Adm/1/77/3884—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Scientific Officer (C) in Safety Research Institute (SRI), Atomic Energy

Regulatory Board (AERB), Kalpakkam with effect from the date indicated against their name until further orders:—

Sl. No.	Name	Pay Band (Rs.)	Date
	Shri		
1.	Parshi Satish Kumar	PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- (FN)	30.06.2010
2.	N. Chintalapati	PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- (FN)	01.07.2010

S. KRISHNAN
Chief Admin. Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 28th September 2011

No. HWB/R/1(8)-B/2011/809—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Konar Padma Arimuthukumar, Assistant, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- ADE Sectt., Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Baroda) from the forenoon of 29th August, 2011 until further orders.

K.V. PILLAI
Admin. Officer-III

No. HWB/R/1(16)-M/2011/811—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Rallapalli Viswanadham, Assistant Accountant, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- DCSEM, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 25th August, 2011 until further orders.

K.V. PILLAI
Admin. Officer-III

The 7th October 2011

No. HWB/R/4(15)/2010-Vol.VI/835—The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Plant (Talcher) to the post indicated against each with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same Plant in a temporary capacity until further orders. The Pay Band and Grade pay of the posts are also indicated below:—

Sl. No.	Name	Present Grade	Promoted to Grade	HWP	Date of appointment to the Promoted Grade
	Shri/Smt.				
1.	Bijaya Laxmi Mishra	SO/D	SO/E	Talcher	01.07.2010
2.	Sarvajit Kumar	SO/D	SO/E	Talcher	01.07.2010
3.	Saroj Kanta Parida	SO/C	SO/D	Talcher	01.07.2010

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Pay Band:—

Post	Pay Band	Grade Pay
Scientific Officer-E	PB-3 Rs. 15,600—39,100/-	7,600/-
Scientific Officer-D	PB-3 Rs. 15,600—39,100/-	6,600/-

K.V. PILLAI
Admin. Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 01 October 2011

No. NFC/ADMN/PEN/EC-3691—On attaining the age of superannuation, Shri R. Pakkirisamy, SO/G, (Pay Band Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,900/- of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.08.2011 (AN).

B. LALITHA
APO

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500016, the 14th September 2011

No. AMD-51(39)/2005-Pen.—The following Officers have relinquished the charge of their posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on acceptance of voluntary retirement on the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
	S/Shri/Smt		
1.	Dr. Ch. Sudhakar, SO-D	01.08.2011 (FN)	Voluntarily
2.	Shri J. C. Sachdeva, SO-E	01.09.2011 (FN)	Voluntarily

P. MOHAN BABU
Chief Administrative and Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 4th October 2011

No. A-32016/2/2011-E-I—The Competent Authority is pleased to promote the following Junior Technical Assistants (Laboratory) in the Aircraft Engineering Directorate in the office of Director General of Civil Aviation to the grade of Junior Aeronautical Officer (Laboratory), Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial in the Aircraft Engineering Directorate in

this office in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- with grade pay of Rs. 4,600/- on regular basis with effect from 27.09.2011 (F.N.) or until further orders :—

1. Shri Suraj Bhan Toor
2. Sh. Rakesh Kumar

VIJAY SINGH
Dy. Dir. of Administration

DIRECTORATE GENERAL OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 30th September 2011

No. 27/39/88-CA(NDR)/Estt. 1401—24—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Dinesh Kumar Gupta, ADG(Arch), Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 retires from Government Service with effect from the afternoon of 30.09.2011.

VIJAY PRAKASH RAO
Liaison Officer to Chief Architect (New Delhi Region)

No. 27/9/2009-CA(NDR)/Estt. 1425—48—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Ashok Kumar, Chief Architect (NDR), Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 retires from Government Service with effect from the afternoon of 30.09.2011.

VIJAY PRAKASH RAO
Liaison Officer to Chief Architect (New Delhi Region)

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 21st September 2011

No. F. 48-Ad (AT)/2011—Smt. R. P. Loke, Office Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 02nd September, 2011 till the afternoon of 30th September, 2011 (i.e. till the date of her retirement on superannuation) or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The appointment of Smt. R.P. Loke, as Assistant Registrar, is on adhoc basis and as such it will not bestow upon her, any claim for regular appointment in that grade and the services rendered by her on adhoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

R. V. EASWAR
President

No. F. 48-Ad(AT)/2011—The following officials of the Income-tax Appellate Tribunal are appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, on purely ad-hoc basis with effect from the date and at the Bench/es

mentioned against each in Column No. 3 and 4 respectively, for a period of six months in Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-, or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name/Designation of the Officials and Bench(es) where presently posted	Effective Date	Bench(es) where posted
1.	Shri M. S. Pal, Office Superintendent	05.09.2011	Indore
2.	Shri P. S. Singh, Office Superintendent	02.09.2011	Mumbai (Hqr at Delhi)
3.	Shri P. Samuel, Office Superintendent	02.09.2011	Chennai
4.	Shri G. K. Kamalamma, Head Clerk	02.09.2011	Bangalore
5.	Shri N. K. Memon, Assistant	02.09.2011	Mumbai
6.	Shri V. N. Warang, Assistant	02.09.2011	Mumbai

2. The appointments of the above mentioned officials are on adhoc basis and as such it will not bestow upon them any claim for regular appointment in that grade and the services rendered by them on adhoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

R. V. EASWAR
President

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivang Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 20th June 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2011/00232—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivang Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

RABI BARUA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pune Waste Management Company Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/146470—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Pune Waste Management Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manik Agencies Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/100025—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manik Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apex Creations Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/137949—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Apex Creations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Snowberry Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/181374—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Snowberry Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarthak Travel Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/179332—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Sarthak Travel Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A M H Software Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/132410—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A M H Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fortune Sales Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/96948—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fortune Sales Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Softpoint Computers Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/094764—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Softpoint Computers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monsons (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 11th August 2011

No. 560(5)/070334—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Monsons (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Srishti Interiors Private Limited

New Delhi-110019, the 11th August 2011

No. 560(5)/92074—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Srishti Interiors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aryan Portfolio Private Limited

New Delhi-110019, the 11th August 2011

No. 560(5)/124798—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aryan Portfolio Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Demarche Biotech Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 24th August 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00079—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Demarche Biotech Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vans Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 27th August 2011

No. 560(5)/70105—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vans Securities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marina Fashions Private Limited

New Delhi-110019, the 27th August 2011

No. 560(5)/171037—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marina Fashions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dibrugarh Hotels Private Limited

New Delhi-110019, the 29th August 2011

No. 560(5)/156473—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dibrugarh Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ADP Clothing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 6th September 2011

No. 560(5)/178223—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ADP Clothing Company Private

Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eros Spare Parts Private Limited

New Delhi-110019, the 21st September 2011

No. 560(5)/216460—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eros Spare Parts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Himadri Printers & Packers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st September 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00078—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Himadri Printers & Packers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Futurevision Steel and Alloys Private Limited

New Delhi-110019, the 21st September 2011

No. 560(5)/216503—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Futurevision Steel and Alloys Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MGIC India Private Limited

New Delhi-110019, the 21st September 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00163—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. MGIC India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aegir Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/170415—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aegir Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Odisha Steel and Power Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/211374—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Odisha Steel and Power Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kizen Spare Autoparts Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/210966—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kizen Spare Autoparts Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Imagine Preschools Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/206634—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Imagine Preschools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. VRI Software Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/125392—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. VRI Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Temple Biotech Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/129582—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Temple Biotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun IT Services Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/132988—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sun IT Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Odisha Mines and Minerals Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/210933—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Odisha Mines and Minerals Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Compaq Iron Castings Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/211202—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Compaq Iron Castings Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A and A Softech Private Limited.

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/144286—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A and A Softech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. VAG Fincap Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/132988—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. VAG Fincap Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Livelink Web Services Private Limited

New Delhi-110019, the 27th September 2011

No. 560(5)/162604—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Livelink Web Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Super Prefab and Refrigeration Company Private
Limited

New Delhi-110019, the 27th September 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00043—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Super Prefab and Refrigeration Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nanoway Info Technology Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00169—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nanoway Info Technology Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meritage Business Support Services Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00166—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Meritage Business Support Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Global Academic Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00163—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Global Academic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Compaq Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00119—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Compaq Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. 7seas Media India Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(5)/165296—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. 7seas Media India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. RMA Manu Pipeline Equipments Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(5)/75824—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. RMA Manu Pipeline Equipments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krisven Manufacturing Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(5)/201999—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krisven Manufacturing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SSB Clothing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/181327—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SSB Clothing Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. White Arrow Leathers Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2011

No. 560(5)/58787—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. White Arrow Leathers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Modern Agro Research Farms Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/102347—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Modern Agro Research Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwakarma Heavy Equipments Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/42345—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishwakarma Heavy Equipments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Carex Communications Services Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/196682—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Carex Communications Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Best Machineries Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/37835—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Best Machineries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devi Sagar Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/38235—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Devi Sagar Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Earth Forgings Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/216292—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Earth Forgings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daata Chit and Finance Company Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/16111—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Daata Chit and Finance Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S D P Clothing Company Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/176435—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S D P Clothing Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jay Vee Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 30th September 2011

No. 560(5)/137315—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jay Vee Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Click Consult & Design India Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/188604—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Click Consult & Design India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mera Net Private Limited

New Delhi-110019, the 30th September 2011

No. 560(5)/105309—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mera Net Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. N R B Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2011

No. 560(5)/140025—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N R B Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M G A Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 30th September 2011

No. 560(5)/16573—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M G A Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Netcom India Private Limited

New Delhi-110019, the 30th September 2011

No. 560(5)/67585—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Netcom India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. N. J. and H. S. Engineers and Builders Private
Limited

New Delhi-110019, the 27th August 2011

No. 560(5)/30479—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. J. and H. S. Engineers and Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIAS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rama Krishna Films Private Limited

New Delhi-110019, the 21st September 2011

No. 560(5)/118648—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rama Krishna Films Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIAS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Domus Art Gallery Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd September 2011

No. 560(5)/111468—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Domus Art Gallery Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIAS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rasan Cultivations Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00055—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rasan Cultivations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gyan & Lee Healthcare Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd October 2011

No. 560(5)/178484—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gyan & Lee Healthcare Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIAS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nikhil Builders and Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00106—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nikhil Builders and Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

EGINIAS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swetu Stone Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00109—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swetu Stone Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Transpan Financial Services Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00118—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Transpan Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramforce India Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00089—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramforce India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Interlaken Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(5)/177663—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Interlaken Promoters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madan Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00093—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madan Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rizzer Exim Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00096—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rizzer Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Right Choice Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00094—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Right Choice Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sixth Dimension Multimedia Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(5)/79776—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sixth Dimension Multimedia Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nishant Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00119—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nishant Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Generation Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00121—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Generation Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kuberco Sales Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00120—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kuberco Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arizona Infrastructure Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(5)/211371—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arizona Infrastructure Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SRS Vijay Sales Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00095—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SRS Vijay Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

EGINIAS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Changia Steels Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00102—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Changia Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

EGINIAS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Taxpayers Clubs Services Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(5)/115335—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Taxpayers Clubs Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Infin Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00025—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganga Infin Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nivedita Arts Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(5)/179053—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nivedita Arts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Infin Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00025—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganga Infin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Global Convergence Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2011

No. 560(5)/206409—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Global Convergence Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rahul Finlease Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00018—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rahul Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tosha Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00030—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tosha Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Particular Manage Finlease (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Particular Manage Finlease (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Performance Trading and Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00016—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Performance Trading and Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seward Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(5)/148162—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seward Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sh. Gupteshwar Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 5th October 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00022—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sh. Gupteshwar Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

New Delhi-110019, the 11th October 2011

No. RoC/Delhi/560(5)/EES-2010/9878—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register and Companies Delhi and Haryana and are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	047846	M/s. Savvy Leasing and Fiancing Private Limited
2.	144065	M/s. Melody India Impex Private Limited
3.	073979	M/s. N S G Electronic Private Limited

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kanpur-208001, the 3rd October 2011

No. LC/560(5)/291—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register and Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	003382	M/s. Garun Prakashan Private Limited
2.	017613	M/s. Murari Investment (India) Limited
3.	022892	M/s. Swastika Petroplast Private Limited
4.	012215	M/s. S.A. Chemicals Private Limited

M. P. SHAH
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Chandigarh, the 30th September 2011

No. RoC/560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of following companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Comp. No.	Company Name
1	2	3
1.	24667	M/s. AG Herbals Private Limited
2.	33006	M/s. Kamdhenu Coatings Private Limited
3.	31274	M/s. Brand Realty Chandigarh Private Limited
4.	32542	M/s. SVR Educational Services Private Limited
5.	13529	M/s. Kriti Engineering Private Limited
6.	06225	M/s. Laxmi Manufacturers Private Limited
7.	02804	M/s. Sirhind Khanna Transporters Private Limited
8.	32664	M/s. Dextrous Technologies Private Limited
9.	31805	M/s. Pennon Capital Advisory Private Limited
10.	27862	M/s. V & T Consultancy Services Private Limited

1	2	3
11.	34077	M/s. Just SMS Advertising Company Private Limited
12.	08326	M/s. Dalip Finance Private Limited
13.	07765	M/s. Narula Constructions Private Limited
14.	09976	M/s. Sarbat Finance And Leasing Company Private Limited
15.	29083	M/s. Golden Connections Exim Private Limited
16.	03675	M/s. Mercantile Consultants India Private Limited
17.	15210	M/s. Eminent Overseas Private Limited
18.	30700	M/s. First Immigration Publishers Private Limited
19.	10611	M/s. Punjab Bricks Manufacturing Co. Private Limited
20.	08199	M/s. GSA Finance And Investments Private Limited
21.	09062	M/s. Pakiza Deposits And Investment Private Limited
22.	26977	M/s. M P Flywel Services Private Limited
23.	11012	M/s. Ranauta Agro Enterprises Private Limited
24.	23222	M/s. KS Auto Sales And Consultants Private Limited
25.	17139	M/s. KVR Builders Private Limited
26.	28069	M/s. Phoenix Infocomm Private Limited
27.	31159	M/s. Engage Consultants Private Limited
28.	30709	M/s. United Datasoft Software Professional Solutions Private Limited
29.	29893	M/s. Motia Colonisers Private Limited
30.	15469	M/s. A And A Chemical And Glue Works Private Limited
31.	17785	M/s. Novaday Hire Purchase And Deposits Limited

DR. RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Jaipur-302001, the 30th September 2011

No. RoC/JPR/560(5)/1185—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1	2	3
1.	003449	M/s. Rajasthan Automotive Castings Limited
2.	005363	M/s. Dhawan Marble and Granite Private Limited
3.	006554	M/s. Health and Prosperity Limited
4.	006580	M/s. Advance Imaging Limited
5.	007307	M/s. Patwari Brothers Private Limited
6.	009688	M/s. Deepharma Laboratories Limited
7.	016661	M/s. Bikaner Medicare Private Limited
8.	016680	M/s. Sanju Granimarmo Private Limited
9.	016787	M/s. Jalori Innovations India Private Limited
10.	017299	M/s. Shree Bhagwati Drinks Private Limited
11.	017423	M/s. Complete Education Design Private Limited
12.	017815	M/s. Highseas Tradelinks and Travels Private Limited
13.	017984	M/s. Sangiyaji Estates Private Limited
14.	017985	M/s. Sangiyaji Properties Private Limited
15.	017987	M/s. Sangiyaji Farm Private Limited
16.	021010	M/s. Zaharveer Real Estate Private Limited
17.	021092	M/s. Rajoria Real Estate Developers Private Limited
18.	021391	M/s. Akashdeep Electromech Private Limited
19.	021401	M/s. Aironet Networks Private Limited
20.	021749	M/s. Biue Bell Developers Private Limited
21.	022554	M/s. Rashi Buildhome Private Limited
22.	022590	M/s. Reliable Premises Private Limited
23.	022611	M/s. Ayush Commodity Brokers Private Limited
24.	026376	M/s. Dream Retails Solutions Private Limited
25.	025857	M/s. Loyal Buildgreens Private Limited
26.	025538	M/s. Gauri Nandan Buildcon Private Limited

1	2	3
27.	011052	M/s. T C S Consultancy Services Private Limited
28.	006428	M/s. JM Fincon Private Limited
29.	008413	M/s. Sugam (India) Engineers Private Limited
30.	004544	M/s. Agarwal Hosiery and Apparels Private Limited
31.	011103	M/s. Khandelwal Electricals Private Limited
32.	014644	M/s. Aadinath Carriers Private Limited
33.	028760	M/s. Dhanwantari Edumart Private Limited
34.	015856	M/s. AVG Resorts Private Limited
35.	026888	M/s. Amarnath Compusystems Private Limited
36.	021440	M/s. Shreepati Art and Craft Limited
37.	017730	M/s. Easyearn Network Private Limited
38.	015454	M/s. Zylink Infotech Private Limited
39.	022483	M/s. Wonder Onex Marmo Private Limited
40.	026964	M/s. Green Aura Buildcon Private Limited
41.	006363	M/s. Peelwa Resorts Private Limited
42.	012065	M/s. Dholpur Leasing and Finance Company Private Limited
43.	012361	M/s. Venus Ceramics Private Limited
44.	025578	M/s. Sitara Fab Private Limited
45.	027976	M/s. Bright Vision Marketing Private Limited
46.	029128	M/s. Shree Krishna Radhika Marketing Private Limited
47.	010510	M/s. Shally Stones and Marbles Private Limited
48.	022424	M/s. Aman Buildestate Private Limited
49.	007005	M/s. Roome Plastic Private Limited
50.	016467	M/s. Nakshatra Exporttrade Private Limited

S. P. MUKAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jaipur-302001, the 30th September 2011

No. ROC/JPR//560(5)/1187—Notice is hereby given
pursuant to sub.section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies has
this day been struck off the register and the said Companies
are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1.	010425	M/s. Lotus Suitings Private Limited
2.	001373	M/s. Jaipur Ferrous and Non-Ferrous Castings Private Limited
3.	006305	M/s. Pratahkal Publication Private Limited
4.	010539	M/s. Dev Resorts Private Limited
5.	15960	M/s. Enkay Enviro Consultants Private Limited
6.	020185	M/s. Saint Plywood (India) Private Limited
7.	002611	M/s. Prabhat Enterprises Private Limited
8.	019984	M/s. Kashish Granites Private Limited
9.	019989	M/s. Subham Ambika Properties Private Limited
10.	019992	M/s. Freeze Dreams Exim Private Limited
11.	019177	M/s. Aryawat Infomedia Private Limited
12.	019101	M/s. Matrukripa General Trading and Constructions Private Limited
13.	022047	M/s. Manharvi Buildcomm Private Limited
14.	022039	M/s. Gulmohar Buildtech Developers Private Limited
15.	019184	M/s. Aarti Guiding Mills Private Limited
16.	019632	M/s. Absolute Insurance Consultancy Private Limited
17.	019612	M/s. Amulya Insurance Consultants Private Limited
18.	019544	M/s. Saanjh Savera Entertainment Private Limited
19.	021861	M/s. Malik Technology Management Private Limited
20.	21864	M/s. Super Sensational Security Services Private Limited
21.	21584	M/s. Surya Narayanam Surgitech Private Limited
22.	021842	M/s. Marudhar Insurance Consultancy Private Limited
23.	021836	M/s. Khetu Mercantile Services Private Limited
24.	019565	M/s. Dilip Pharma Private Limited

1	2	3
25.	019072	M/s. Secular Life Insurance Consultants Private Limited
26.	018995	M/s. Nice Tech Services Private Limited
27.	019133	M/s. N.V.O. Consultants Private Limited
28.	019199	M/s. Goldshine Tradelinks Private Limited
29.	019158	M/s. Shree Sawaria Tradelink Private Limited
30.	019187	M/s. Thar Technosoft Private Limited
31.	021827	M/s. Sunshine Helpline Auto Services Private Limited
32.	021815	M/s. Sonu Buildestates Private Limited
33.	021828	M/s. Jagdambakripa Resorts Private Limited
34.	021943	M/s. ACE Sys Soft Private Limited
35.	021885	M/s. Mrityunjay Colonisers and Developers Private Limited
36.	020065	M/s. Superior Masonary Stones Private Limited
37.	019082	M/s. Maheshwari and Kedawat Consultant Private Limited
38.	021952	M/s. Bhaskar Resorts Private Limited
39.	019966	M/s. Enerwin Energy Management and Electrical Technology Private Limited
40.	022223	M/s. Ankit Lubricants Private Limited
41.	022016	M/s. Sutradhar Traders Private Limited
42.	022049	M/s. Moon Planet Trading Company Private Limited
43.	021947	M/s. Manglam Proteins Private Limited
44.	021941	M/s. Kumar Garments Private Limited
45.	021984	M/s. Amit Manish Geeta Electronics and Textiles Private Limited
46.	021095	M/s. OHM Propcon Private Limited
47.	019990	M/s. Khushiya Insurance Consultancy Service Private Limited
48.	019470	M/s. Bloom Passion Commitment Marketing Private Limited
49.	019406	M/s. Leocorn Adversing Private Limited
50.	019469	M/s. Sumitra Entertainment Private Limited
51.	019568	M/s. Sunrise Herbals Private Limited

1	2	3
52.	019609	M/s. Jugal Kishore Ved Financial Consultants Private Limited
53.	018937	M/s. Apex Tiles Export India Limited
54.	022022	M/s. Newage Infotraining Private Limited
55.	019316	M/s. Shrinath Accessories Private Limited
56.	019506	M/s. Katushka Hotels Private Limited
57.	019487	M/s. Suncity Stone Craft Private Limited
58.	019482	M/s. Veetech Pharma Private Limited
59.	019806	M/s. Smart Maker Insurance Consultants and Marketing Services Private Limited
60.	019449	M/s. Mars Golden Tradelink Private Limited
61.	019557	M/s. Captain Grit Crusher Private Limited
62.	019670	M/s. Sagar Buildhome Private Limited
63.	0119551	M/s. Trivenidham Construction Private Limited
64.	019709	M/s. Shree Sharanya Developers Private Limited
65.	019920	M/s. Anupa Petrochem Private Limited
66.	022253	M/s. Khandal Builders and Colonizers Private Limited
67.	022193	M/s. Saisahara Ayurvedic Hospital and Research Center Private Limited
68.	022255	M/s. Moon Planet Consultancy and Management Services Private Limited
69.	019635	M/s. Sailors Shipping Company Private Limited
70.	019409	M/s. Vishnoi Agencies Private Limited
71.	019674	M/s. Daniel Pharma Ethicals Private Limited
72.	021871	M/s. Harshvardhan Buildhome Private Limited
73.	019764	M/s. Mehar Alloys Private Limited
74.	019412	M/s. Neelam Buildcon Private Limited
75.	019907	M/s. Lakecity Engineering Works Private Limited
76.	019163	M/s. Shree Nakoda Minchem Private Limited
77.	019602	M/s. Balaji Namkinwala Private Limited

1	2	3
78.	019980	M/s. Om Swastik Cottex Private Limited
79.	019974	M/s. Transcend Technologies Private Limited
80.	019570	M/s. Girdhar Gopal Construction Private Limited
81.	019572	M/s. Vidushi Audio Cassettes Private Limited
82.	019192	M/s. Ocean Colonizers Private Limited
83.	019212	M/s. Rathi Medicines Private Limited
84.	019601	M/s. Trophic Health Care Private Limited
85.	019919	M/s. Preet Wood Private Limited
86.	019941	M/s. Think Pink Jewels Private Limited
87.	019942	M/s. Om Sarvodaya Hospital and Research Centre Private Limited
88.	019555	M/s. Royal Man Force Service Private Limited
89.	019199	M/s. Krishan Murari Concept Marketing Private Limited
90.	020166	M/s. Live Infotech Private Limited
91.	023921	M/s. Siddhi Vinayak Greencity Developers Private Limited
92.	020332	M/s. Qfiscals Mira Shares Consultants Private Limited
93.	020625	M/s. Vikas Technologies Private Limited
94.	002172	M/s. Shri Jinendra Textiles Mills Private Limited
95.	004627	M/s. Goodluck Constructions Private Limited
96.	019708	M/s. Mehta Book House Private Limited
97.	019717	M/s. Timeless Designes Private Limited
98.	011557	M/s. Apex Finsec Private Limited
99.	019665	M/s. Brahmarishi Advertisement Company Private Limited
100.	019706	M/s. Jain Arora Marketing Private Limited
101.	027222	M/s. Kalyan Buildvision Private Limited
102.	018590	M/s. Genome Remedies Private Limited

1	2	3
103.	023168	M/s. Konark Landbase Developers Private Limited
104.	032320	M/s. Bhagwati Mintech Processors Private Limited
105.	028254	M/s. Shiv Surendra Gour Multitrade Services Private Limited
106.	024764	M/s. Shekhawati Manpower Services Private Limited
107.	022517	M/s. Mann Landcon Private Limited
108.	021629	M/s. Himadri Tours Private Limited
109.	008253	M/s. Jaipur Garden (India) Private Limited
110.	016970	M/s. R. P. Electech Private Limited
111.	013528	M/s. Surbhit Gardens Private Limited
112.	023904	M/s. Siddhi Vinayak Buildev Technology Private Limited
113.	027426	M/s. Reliable Natural Aqua Technologies Private Limited
114.	027049	M/s. Apex Buildmart Private Limited
115.	011377	M/s. Bhairon Builders Private Limited
116.	020021	M/s. Sky Marmo Stones Private Limited
117.	026394	M/s. Meena Gems Private Limited
118.	002611	M/s. Prabhat Enterprises Private Limited
119.	020712	M/s. Ratan Jot Farms Private Limited
120.	021686	M/s. Rathore Colonisers Private Limited
121.	018330	M/s. Classic Bits Private Limited
122.	011378	M/s. Durgesh Builders Private Limited
123.	011376	M/s. Choice Premises Private Limited
124.	032463	M/s. Star Radix Edutech Private Limited

S. P. Kumar
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jaipur-302001, the 30th September 2011

No. ROC/JPR/560/2/1189—Notice is hereby given
pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1.	023715	M/s. Royal Diamond Land Developers Private Limited
2.	012515	M/s. Triple 'A' Combines Private Limited
3.	013571	M/s. Sanghi Chemtech Private Limited
4.	013676	M/s. Komal Marmo Private Limited
5.	013677	M/s. Sarveshwar Cottex Private Limited
6.	013694	M/s. Grindh and Sons Cold Storage Private Limited
7.	013699	M/s. Singhal Oils Private Limited
8.	013704	M/s. Dev Guru Kripa Minerals Private Limited
9.	013736	M/s. Topka Castings Private Limited
10.	013845	M/s. Sanganer Crafts Private Limited
11.	013856	M/s. Shri Gopi Krishna Properties Private Limited
12.	013862	M/s. Shree Dham Minechem Private Limited
13.	013891	M/s. Shree Keshariyaji Fincap Private Limited
14.	013928	M/s. Khushboo Buildcon Private Limited
15.	013967	M/s. Shekhawati Agro Forest Private Limited
16.	014071	M/s. Derby Doublers Private Limited
17.	014098	M/s. Sanpys Pharmaceuticals Private Limited
18.	14150	M/s. Gupt Ganga Borewell Private Limited
19.	14158	M/s. Dundlod Fort Hotel Private Limited
20.	14328	M/s. Singhraj Agro Company Private Limited
21.	14336	M/s. Shree Shyam Febtex Private Limited
22.	14397	M/s. Sprouts Pharmaceuticals Private Limited
23.	14442	M/s. Unnat Mineral Water Private Limited
24.	144451	M/s. Silicon Minerals Private Limited
25.	14511	M/s. Udaipur Agronomics Private Limited
26.	14518	M/s. Shailgiri Finlease Private Limited
27.	14541	M/s. Trinetra Survey and Detective Consultants Private Limited

1	2	3
28.	014546	M/s. Vardhman Zenning and Processing Private Limited
29.	014549	M/s. Yadvi Mechanical Private Limited
30.	014562	M/s. Dhiraj Jewellers Private Limited
31.	014592	M/s. Shree Krishna India Infra Developers Private Limited
32.	014625	M/s. Shakambhari Electronics Private Limited
33.	014647	M/s. Sirohi Microns Private Limited
34.	014736	M/s. Sobhna Foods Private Limited
35.	014775	M/s. Udaiman Jojoba Plantation and Agro Exports Private Limited
36.	014791	M/s. Sharwin Hotel and Resorts Private Limited
37.	014810	M/s. Shikhar Cap-Invest Private Limited
38.	014887	M/s. Umang Suitings Private Limited
39.	014896	M/s. Enviro Concept (India) Private Limited
40.	014927	M/s. Sharma Parivahan Cargo Mores Private Limited
41.	014980	M/s. Sona Flour Mills Private Limited
42.	015018	M/s. Dharohar Marketing Private Limited
43.	015186	M/s. Sonkiya Agroforestry Private Limited
44.	015306	M/s. Sanguine Computer Forms Private Limited
45.	015329	M/s. Yashaswi Educational and Health Resorts Private Limited
46.	015409	M/s. Dhan Laxmi Property Developers Private Limited
47.	015431	M/s. Samidha Communication and Information Private Limited
48.	015433	M/s. Davendra Computer Services Private Limited
49.	015470	M/s. Shri Balaji Earthmovers Private Limited
50.	015510	M/s. Verma Tradelinks Private Limited
51.	015547	M/s. Vikram Texprints Private Limited
52.	015596	M/s. Great Oak Sales Private Limited
53.	015608	M/s. Shreeram Land Developers Private Limited
54.	015626	M/s. GDR Marbles and Granites Private Limited
55.	015753	M/s. Gora Sales Private Limited
56.	015892	M/s. SR Edible Oil Private Limited

1	2	3	1	2	3
57.	015932	M/s. Sarit Infotech Private Limited	89.	016916	M/s. Saras Syntex Private Limited
58.	015980	M/s. Dhanvarsha Cards Private Limited	90.	016978	M/s. Gayatri-Namita Hotels and Resorts Private Limited
59.	016018	M/s. E. M. T. Weigh Master Private Limited	91.	017027	M/s. Digital Dial Cybercom Private Limited
60.	016025	M/s. Trident Hoses Private Limited	92.	017072	M/s. Devasha Systems Private Limited
61.	016034	M/s. SPV Synthetics Private Limited	93.	017119	M/s. Rustic Mining Private Limited
62.	016068	M/s. Shri Ganpati Green Ores Private Limited	94.	017135	M/s. Kamayani Automobiles Private Limited
63.	016070	M/s. Transtech IT Solutions (India) Private Limited	95.	017161	M/s. Dream Charmer Software Private Limited
64.	016081	M/s. Deepchet Agro Private Limited	96.	017197	M/s. Win-Care Biotech Private Limited
65.	016110	M/s. Wolkgeist Packagings Private Limited	97.	017219	M/s. Shree Murti Sleepers Private Limited
66.	016118	M/s. Kaizen Farm Foods Private Limited	98.	017221	M/s. Fatehpur Infotech Private Limited
67.	016167	M/s. Touchino Export and Import Private Limited	99.	017237	M/s. Shree Nakoda Compusoft Private Limited
68.	016217	M/s. Vevosoft Technologies Private Limited	100.	017257	M/s. Wedding Bed Cover Private Limited
69.	016241	M/s. Shri Venkteshwar Biscuits Private Limited	101.	017293	M/s. Shri Ladilish Guest House Private Limited
70.	016303	M/s. Kapiraj Tapes and Foils Private Limited	102.	017328	M/s. H.R.B. Marketing Private Limited
71.	016351	M/s. UN Me Entertainments Private Limited	103.	017350	M/s. Shivkripa Furniture Palace Private Limited
72.	016397	M/s. Shivshakti Polytex Private Limited	104.	017369	M/s. Vikas Polysacks Private Limited
73.	016399	M/s. Vijashani Granites Private Limited	105.	017375	M/s. Vaishali Internet Private Limited
74.	016406	M/s. Shree Laxmi Kripa Construction and Material Suppliers Private Limited	106.	017455	M/s. Kalwadias Impex Private Limited
75.	016511	M/s. Triveni Buildstates Private Limited	107.	017489	M/s. Davinci Exim Private Limited
76.	016512	M/s. Shri Ram Triveni Papers Private Limited	108.	017516	M/s. Shree Sengar Packers Private Limited
77.	016557	M/s. Sagar Darshan Properties Private Limited	109.	017587	M/s. Shri Ganesh City Developers Private Limited
78.	016638	M/s. Shri Girdhar Marketing Company Private Limited	110.	017606	M/s. Shree Balaji Agropest Private Limited
79.	016641	M/s. Shree Shyam Share Private Limited	111.	017609	M/s. Sparddha Sumans Impex Private Limited
80.	016681	M/s. Dev Prakash Construction Private Limited	112.	017723	M/s. Webfamily Netsales Private Limited
81.	016703	M/s. E-Soft-Lane Infotech Private Limited	113.	017801	M/s. Eagle-Eyed Marketing Private Limited
82.	016711	M/s. Evens Software Private Limited	114.	017904	M/s. Galaxy Tradelink Private Limited
83.	016750	M/s. Vinayak Build-Dev Private Limited	115.	017967	M/s. Gateway Edutainment Private Limited
84.	016789	M/s. Shiv Shakti Track Engineers Private Limited	116.	018091	M/s. Vision Smart Marketing System Private Limited
85.	016804	M/s. Habile Net Private Limited	117.	018179	M/s. Dhaka Placement Services Private Limited
86.	016811	M/s. Vinayak Computech Private Limited	118.	018202	M/s. Vastu Town Planners Private Limited
87.	016845	M/s. SK Hospital and Cancer Research Center Private Limited	119.	018238	M/s. Glidus Biotech Private Limited
88.	016893	M/s. Shree Dhanop Infrastructures Private Limited	120.	018243	M/s. Triple A Gems Rough and Beeds Company Private Limited

1	2	3
121.	018297	M/s. Somlly Tours and Travels Private Limited
122.	018425	M/s. Shri B. O. Art Private Limited
123.	018442	M/s. Yes Webnet Associates Private Limited
124.	018605	M/s. Geejgarh Clubs Private Limited
125.	018629	M/s. True Heart Marketing Private Limited
126.	018724	M/s. Shubham Colonisers Private Limited
127.	018837	M/s. Tomer Pharmaceuticals Private Limited
128.	018963	M/s. S 4 Tex Fab Private Limited
129.	018971	M/s. Yadav Paradise Marketing Private Limited
130.	019147	M/s. ELI Marketing and Services Private Limited
131.	019259	M/s. Vista Softech Private Limited
132.	019278	M/s. Shri Ram Lubricants Private Limited
133.	019502	M/s. Jaipur Bullion Private Limited
134.	019512	M/s. Gemmart Jewels Private Limited
135.	019616	M/s. Saba Haveli Hotels Private Limited
136.	019619	M/s. Viraj Apparels Private Limited
137.	019790	M/s. Deen Automobile Private Limited
138.	020083	M/s. Sanjay Tex-Stores Private Limited
139.	020128	M/s. Wonder Arts Private Limited
140.	020133	M/s. Saurabh Rai Builders and Developers Private Limited
141.	020136	M/s. Empire Infosoft Technologies Private Limited
142.	020138	M/s. Shiv Mahima Insurance Consultants and Marketing Private Limited
143.	020165	M/s. Kamdhenu Laboratories Private Limited
144.	020180	M/s. Weekend Travels Private Limited
145.	020192	M/s. Khokhar Developers and Colonizers Private Limited
146.	020194	M/s. Vashno Buildhome Private Limited
147.	020329	M/s. Ganpati Sharenewsonline Consultant Private Limited
148.	020331	M/s. Tyagi Carrier Associates Private Limited
149.	020364	M/s. Shobha Sharma Constructions Company Private Limited
150.	020427	M/s. Sankris Steels Private Limited

1	2	3
151.	021448	M/s. AKX Lighting Private Limited
152.	021702	M/s. Umang Tarang Marketing and Consultancy Services Private Limited
153.	026317	M/s. Shivkripa Surgitech Agro Private Limited
154.	024106	M/s. Adduce Labs Private Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Ahmedabad-380013, the 15th April 2011

No. RoC/GUJ/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	029319	M/s. Aalok Organisers Private Limited
2.	003674	M/s. Abhi Estates Private Limited
3.	030549	M/s. Access Card Systems Private Limited
4.	007973	M/s. Adeshwar Plastics Private Limited
5.	045118	M/s. Akshar Movies Private Limited
6.	052036	M/s. Alpha Transfusion Private Limited
7.	053081	M/s. Amarkunj Consturction Private Limited
8.	016806	M/s. Ankur Fabrics and Construction Private Limited
9.	023221	M/s. Asheema Polyfab Private Limited
10.	019615	M/s. Bansari Financial Services Private Limited
11.	020107	M/s. Baroda Fiscal Services Private Limited
12.	025218	M/s. Bosco Food Products Private Limited
13.	001567	M/s. BTX Chemicals Private Limited
14.	021697	M/s. Bulkflow Conveyors Private Limited
15.	029363	M/s. Chetankumar Gajera Enterprise Private Limited
16.	006750	M/s. Chroma Electronics Private Limited

1	2	3
17.	048381	M/s. Crystal Rolled Products Private Limited
18.	047884	M/s. CVS Fab-Tax Private Limited
19.	016033	M/s. Dhawal Synthetics Private Limited
20.	021371	M/s. Dhruv Fab Private Limited
21.	020821	M/s. Fox and Anchor Communication Private Limited
22.	049559	M/s. Gruh Sarjan Construction Private Limited
23.	005417	M/s. Gurukrupa Plastics Private Limited
24.	043629	M/s. H. M. Patel Food (India) Private Limited
25.	040068	M/s. Jai Purshottam Polysyer Private Limited
26.	009539	M/s. Ketichem (India) Private Limited
27.	042704	M/s. Kokil Engineers Private Limited
28.	049550	M/s. Kosher Timberland Private Limited
29.	017204	M/s. Life Plast Marketing Private Limited
30.	023021	M/s. Mahdev Ramchandra Jaguste Books Private Limited
31.	029580	M/s. Maithilee Securities Private Limited
32.	027062	M/s. Mende Partiele Boards Limited
33.	015410	M/s. Multi Industrial Ceramics Private Limited
34.	024495	M/s. Narmada Aqua Private Limited
35.	018249	M/s. Narula Exim Private Limited
36.	052422	M/s. Nature Realestate Investors Private Limited
37.	015463	M/s. Newcon Projects Private Limited
38.	003699	M/s. Nistal Fonderies Private Limited
39.	003191	M/s. Noble Paper and Board Mills Private Limited
40.	017120	M/s. Padmavati Castor Mills Private Limited
41.	045814	M/s. Pancharatna Gold and Jewels Private Limited
42.	014403	M/s. Phoenix Consultants Private Limited
43.	041704	M/s. Powersoft Inventive Consultants Private Limited
44.	024277	M/s. Precured Tyres Private Limited
45.	035276	M/s. Priyanka Fashion Private Limited
46.	045442	M/s. Rama Metcock Private Limited

1	2	3
47.	051171	M/s. Penaisance Healthcare Private Limited
48.	013675	M/s. Rose Marketing Private Limited
49.	041655	M/s. Samarpan Network Marketing Private Limited
50.	024529	M/s. Samruddh Capital Finvest Private Limited
51.	023819	M/s. Shilhome Airtech Private Limited
52.	022555	M/s. Shreeramnath Chemicals Private Limited
53.	038548	M/s. Shrinathji Fine Cast Private Limited
54.	049722	M/s. Siddharth Glasstex Private Limited
55.	048162	M/s. Sonicties Infotech Private Limited
56.	007712	M/s. Sthapatya Constructions Private Limited
57.	011844	M/s. Suresh Soaps Private Limited
58.	046860	M/s. Sushil Ossa Equipments Private Limited
59.	035528	M/s. Swagat Dyeing and Printing Private Limited
60.	048879	M/s. Velocity Circuits Private Limited
61.	020159	M/s. Vikram Marbles Private Limited
62.	013600	M/s. Vishal Recreation Club Private Limited
63.	032095	M/s. Zaverat World Distributors Private Limited

R. K. DALMIA
Registrar of Companies (CI/C)
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Ahmedabad-380013, the 9th May 2011

No. RoC/GUJ/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	046025	M/s. Agilent Stock Broking Private Limited
2.	043510	M/s. Angel Developers Private Limited

1	2	3
3.	006069	M/s. Bhadravarshi Ispat Private Limited
4.	011498	M/s. Gokul Marketing Private Limited
5.	029368	M/s. Kay Raj Corporate Consultant Private Limited
6.	011381	M/s. Kirja Construction and Finance Private Limited
7.	005405	M/s. Krishna Trading Private Limited
8.	050456	M/s. Maseoil Energy Private Limited
9.	031347	M/s. Orbit Park Inn Private Limited
10.	012799	M/s. Overseas Securities and finance Private Limited
11.	017581	M/s. Padmavati Castor Chemicals (India) Private Limited
12.	023839	M/s. Pashwa Finance and Investment Limited
13.	029202	M/s. Penny Netsteel Company Private Limited
14.	029506	M/s. Popular Wheeler Finance Private Limited
15.	036329	M/s. Pravin Textiles Private Limited
16.	024757	M/s. Rajdoot Road Carriers Private Limited
17.	002511	M/s. Ronak Textiles Private Limited
18.	043833	M/s. Sambhavi Hospitals Private Limited
19.	006071	M/s. Shantnir Ispat Private Limited
20.	028313	M/s. Shridhar Securities and Finance Private Limited
21.	028312	M/s. Shrimant Securities and Finance Private Limited
22.	028317	M/s. Shrivasa Securities and Finance Private Limited
23.	020115	M/s. Trendy Technotext Private Limited
24.	045369	M/s. Zetek Pharmaceuticals Private Limited

R. K. DALMIA
Registrar of Companies (CI/C)
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Ahmedabad-380013, the 9th May 2011

No. RoC/GUJ/560(5)/EES-2011—Notice is hereby given
pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies have
this day been struck off the register and the said companies
are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	042201	M/s. Aakash Informatics Private Limited
2.	035413	M/s. Abhi Spices Private Limited
3.	052644	M/s. Accu Engineering Private Limited
4.	030378	M/s. Accumark Impex Private Limited
5.	015575	M/s. Achal Agencies Private Limited
6.	049220	M/s. Adani Habitats Private Limited
7.	042439	M/s. Agrisearch Distributors Private Limited
8.	048365	M/s. Aman Embroidery Private Limited
9.	028347	M/s. Ambica Seientific Glass Private Limited
10.	043049	M/s. Anugrah Impex Private Limited
11.	015167	M/s. Apar Rubber Private Limited
12.	017738	M/s. Aroma Marketing Private Limited
13.	011414	M/s. Arti Synthetics Private Limited
14.	026516	M/s. Aruna Fine-Fab Private Limited
15.	051649	M/s. Asca High Tech Engineers Private Limited
16.	058305	M/s. Ashjen Net Private Limited
17.	015872	M/s. B. K. Patel and Company (Builders) Private Limited
18.	046567	M/s. Balaji Parivahan India Private Limited
19.	011896	M/s. Bandaria Fabrics Private Limited
20.	039866	M/s. Baroda Healthcare Private Limited
21.	040277	M/s. Benaphore Engineers and Consultants Private Limited
22.	007728	M/s. Bijal Electronics Private Limited
23.	038461	M/s. Bitu Investment Private Limited
24.	015145	M/s. Blazonplast Private Limited
25.	043643	M/s. Brain Bargain Learning Solutions Private Limited
26.	000132	M/s. Bytes Internet Services Private Limited
27.	034449	M/s. Canon Fabrics Private Limited
28.	045568	M/s. Cheraj Exim Private Limited

1	2	3	1	2	3
29.	008104	M/s. Citizen Plastics Private Limited	60.	027502	M/s. Gokula Infrastructures Private Limited
30.	012191	M/s. On Packagings Private Limited	61.	024797	M/s. Goldlink Finance Private Limited
31.	046780	M/s. Cranium Tech Services Private Limited	62.	049171	M/s. Greenways Horticulture Private Limited
32.	004885	M/s. Crown Flour Mills Private Limited	63.	036126	M/s. Gremlin Infotech Private Limited
33.	052908	M/s. Decide Battery Manufacturing Private Limited	64.	034013	M/s. Gujarat Adani Infrastructure Private Limited
34.	033856	M/s. Deepom Oil and Proteins Private Limited	65.	012475	M/s. Gujarat Surgimed Enterprises Private Limited
35.	014020	M/s. Dekora Profiles and Pipes Private Limited	66.	044222	M/s. Hemratna Jewellers Private Limited
36.	008301	M/s. Deluxe Diamonds Private Limited	67.	014105	M/s. Hemtex Synthetics Private Limited
37.	016539	M/s. Dhanurdhary Investments and Finance Private Limited	68.	017239	M/s. Heral Art Silk Processors Private Limited
38.	030502	M/s. Diamond Share Brokers Private Limited	69.	033733	M/s. Himdarshak Infotech Private Limited
39.	035281	M/s. Dimple Film Private Limited	70.	023746	M/s. Hi-Tech Thermosets Private Limited
40.	042864	M/s. Diva Ecotech Chemicals Private Limited	71.	024415	M/s. Hitesh Steels Private Limited
41.	044015	M/s. Divyadeep Sales Private Limited	72.	014234	M/s. Ideal Fibers (India) Private Limited
42.	042902	M/s. Diwali Exports Private Limited	73.	007329	M/s. Ilaxi Textile Industries Private Limited
43.	052632	M/s. DMT Technology Private Limited	74.	017476	M/s. Impulse Enterprises Private Limited
44.	010658	M/s. Dolly Estates Private Limited	75.	039899	M/s. Inamdar Land Developers Private Limited
45.	043352	M/s. DRK Syn-Chem Private Limited	76.	025146	M/s. Jainisam Investments Private Limited
46.	045963	M/s. DVD Diamond Private Limited	77.	025223	M/s. Jariwala Finstock Private Limited
47.	009927	M/s. Equity Bearing Private Limited	78.	032999	M/s. Jay Ajay Organisers and Placement Private Limited
48.	046364	M/s. Erika Impex Private Limited	79.	036833	M/s. Jaydee Food Products Private Limited
49.	007704	M/s. Esken Laboratories Private Limited	80.	051433	M/s. Jitu Seafood Private Limited
50.	044343	M/s. Esskay Tradelink Private Limited	81.	017013	M/s. Jolly Pack Well Limited
51.	052736	M/s. Fabient Global Limited	82.	013378	M/s. Jolly Tea Processors and Packers Private Limited
52.	003288	M/s. Famag Pólychem Private Limited	83.	047200	M/s. Kanan films Private Limited
53.	005264	M/s. Forge Fastners (Gujarat) Private Limited	84.	024214	M/s. Kankavati Agro Farms Private Limited
54.	044227	M/s. Galore Printing Press Private Limited	85.	029077	M/s. Kelvin Copper Limited
55.	024776	M/s. Gandhi Capital Private Limited	86.	036206	M/s. Kirti Projects Private Limited
56.	019956	M/s. Garuda Chemicals Private Limited	87.	041980	M/s. Kishan Sales Private Limited
57.	036949	M/s. Garuda Healthcare Private Limited	88.	041496	M/s. Kranti Pumps Private Limited
58.	011674	M/s. Gil Exports Private Limited	89.	052863	M/s. M. R. Synergy Private Limited
59.	011675	M/s. Gil Marketing Private Limited	90.	024996	M/s. Mahavir Civil Engineers Private Limited
			91.	053216	M/s. Manan Commercial Vehicles Private Limited

1	2	3
92.	049644	M/s. Manan Entertainment Private Limited
93.	052923	M/s. Manan Logistics (India) Private Limited
94.	032753	M/s. Maneklal Mansukhbhai Impex Private Limited
95.	050818	M/s. Marfatia Oasis Private Limited
96.	031964	M/s. Maruti Project Consultants Private Limited
97.	010630	M/s. Maulin Quarry and Constructions Private Limited
98.	049699	M/s. Medical Tourism Private Limited
99.	019732	M/s. Meenakshi Transport Company Private Limited
100.	024290	M/s. Metro Pharma Limited
101.	045999	M/s. Midas Formulations Private Limited
102.	028007	M/s. Mohandra Financial Services Private Limited
103.	014999	M/s. Monila Fintrade Private Limited
104.	019360	M/s. Nandesari Industrial Additives Private Limited
105.	007961	M/s. Natraj Colour Chem Private Limited
106.	048927	M/s. Nature Exports Private Limited
107.	029661	M/s. Navkar Agrotech Private Limited
108.	017109	M/s. Nidhi Finstock Limited
109.	034271	M/s. Nilavi Cosmopharma Private Limited
110.	051833	M/s. Nimisha Formulations Private Limited
111.	009054	M/s. Nitin Udyog Private Limited
112.	047586	M/s. Nucleus Agro Bio-Tech Private Limited
113.	008401	M/s. Padmanabh Polymers Private Limited
114.	034050	M/s. Padmavati Krupa Sales Organisers Private Limited
115.	035117	M/s. Panchariya Gin Private Limited
116.	042755	M/s. Parag Embroidery Private Limited
117.	044036	M/s. Parishram Builders Private Limited
118.	038646	M/s. Peninsula Hygiene Agro Industries Limited
119.	037055	M/s. Pioneer Icenet Private Limited

1	2	3
120.	042211	M/s. Prapti Infrastructure Private Limited
121.	049766	M/s. Pratibha Educations Private Limited
122.	050023	M/s. Primex Ply Private Limited
123.	027281	M/s. Pushpak Finance and Investments Private Limited
124.	006452	M/s. Qualitin (Gujarat) Private Limited
125.	041731	M/s. Radiance Textiles Private Limited
126.	026209	M/s. Rai Finstock Private Limited
127.	037977	M/s. Rao Immigration Services Private Limited
128.	006840	M/s. Rawal Agro-Build Private Limited
129.	046245	M/s. Recluse Hospitalities Private Limited
130.	045639	M/s. Regot Marketing Private Limited
131.	023618	M/s. Rel Finance Limited
132.	051719	M/s. Reshlife Healthcare Private Limited
133.	019867	M/s. Rock Fort Chemicals (India) Private Limited
134.	026664	M/s. Rudra Builders Private Limited
135.	038037	M/s. Safal Software Private Limited
136.	021000	M/s. Sai Yarn Processors Private Limited
137.	031156	M/s. Saileela Textiles Private Limited
138.	043344	M/s. Salient Loan Recovery Operations Private Limited
139.	038487	M/s. Salvi Infotech Private Limited
140.	043580	M/s. Sambhav Micro I.T. Services Private Limited
141.	027417	M/s. Samesh Farms and Resorts Private Limited
142.	019447	M/s. Saraf Texo Twist Private Limited
143.	045861	M/s. Sariton Motors Private Limited
144.	044666	M/s. Scorpius Pharma Private Limited
145.	005749	M/s. Shah Pharmaceuticals Private Limited
146.	046166	M/s. Shamsuddin Developers Private Limited
147.	016281	M/s. Shashi Herbals Private Limited
148.	008023	M/s. Shree Radha Texind Private Limited
149.	048289	M/s. Shree Rang Avdhoot Healthcare Private Limited
150.	039008	M/s. Shreekrishna Composites Private Limited

1	2	3
151.	046053	M/s. Shri Saikrishna Exports Private Limited
152.	047315	M/s. Shribalanathsai Transport Private Limited
153.	041313	M/s. Shubhlabh Agro Sales and Services Private Limited
154.	012448	M/s. Skyline Tourism Private Limited
155.	035929	M/s. Smart Cards Private Limited
156.	027422	M/s. Som Sons Farms Private Limited
157.	027420	M/s. Som Vihar Farms Private Limited
158.	034248	M/s. Spun Infonet Private Limited
159.	046487	M/s. Stemtek Trade Export Private Limited
160.	023581	M/s. Sukan Machinery Private Limited
161.	043269	M/s. Supath Learning Centre Private Limited
162.	011366	M/s. Super King Engineers Private Limited
163.	035366	M/s. Suraksha Fincap Private Limited
164.	019997	M/s. Surana Dyeing and Printing Private Limited
165.	011844	M/s. Suresh Soaps Private Limited
166.	035812	M/s. Suvas Marketing Private Limited
167.	013260	M/s. Tejal Paptech Private Limited
168.	007629	M/s. Tirumala Synthetics Private Limited
169.	013421	M/s. Toran Builders Private Limited
170.	032587	M/s. Umiya Finlease Limited
171.	020078	M/s. Unity Translink Private Limited
172.	009753	M/s. V. K. Patel Transport Private Limited
173.	048936	M/s. V. T. Ginning and Pressing Private Limited
174.	046670	M/s. Vaalsalya Consultancy Services Private Limited
175.	036147	M/s. Valsad District Waste Management Company Private Limited
176.	045499	M/s. Vibrant Refoils Private Limited
177.	004105	M/s. Vijup Investment Private Limited
178.	036982	M/s. Vishnu Shivas Quarry Works Private Limited
179.	053374	M/s. Vishwas Tex-Synthetic Private Limited
180.	010815	M/s. Welcome Weaves Private Limited
181.	038443	M/s. Xoomlink Net Private Limited

1	2	3
182.	038835	M/s. Yonpri Import Export Private Limited
183.	033677	M/s. Yuvraj Realty Limited
184.	049338	M/s. Zenith Entertainment Private Limited

R. K. DALMIA
Registrar of Companies (I/C)
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ahmedabad-380013, the 20th May 2011

No. RoC/Guj/560(5)/EES-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	043195	M/s. A.B.M. Logistics Private Limited
2.	009721	M/s. Acharya Wire Private Limited
3.	050265	M/s. ACME Motors Private Limited
4.	022021	M/s. Action Laundry Private Limited
5.	004510	M/s. Alankar Investments Private Limited
6.	019680	M/s. Amee Electro Appliances Private Limited
7.	005939	M/s. Anupurti Investments Private Limited
8.	038832	M/s. Anything Online Private Limited
9.	052773	M/s. Astha Breeding Farms Private Limited
10.	045472	M/s. Atlas Brass and Copper Products Private Limited
11.	030064	M/s. Cambridge Paper and Stationeries Limited
12.	040341	M/s. Cosmos Infotainment Private Limited
13.	042061	M/s. Cygate Consultancy Private Limited
14.	045158	M/s. Dabeli Synthetics Private Limited
15.	020985	M/s. Gabriel Holdings Private Limited
16.	048926	M/s. Gajanan Entertainment Private Limited
17.	051912	M/s. Gujarat Lasart Private Limited
18.	029236	M/s. Harsiddh Carriers Private Limited
19.	011939	M/s. HI Goon Electronics Private Limited

1	2	3
20.	015724	M/s. High Bond Texolane Private Limited
21.	009450	M/s. John Son Builders Private Limited
22.	042428	M/s. Kandla Liquid Storage Services Private Limited
23.	047805	M/s. Kayan Infrastructure Development Private Limited
24.	046115	M/s. KHV Infrastructure Limited
25.	042209	M/s. Kinlay Netlink Private Limited
26.	034672	M/s. Kishan Tyres and Car Service Private Limited
27.	043466	M/s. Mehek Sweets and Caterers Private Limited
28.	043098	M/s. Maruti Forge Private Limited
29.	041512	M/s. Maruti Movies Private Limited
30.	053295	M/s. Nav Gujarat Agro Seeds Private Limited
31.	037207	M/s. Navrang Hotel Private Limited
32.	028839	M/s. Nisha Dyes and Intermediates Private Limited
33.	044694	M/s. Opus Metals Private Limited
34.	017119	M/s. Orien Chemicals Private Limited
35.	039275	M/s. Oyster Maritime Private Limited
36.	034005	M/s. Parameshwar Agro-Tech Private Limited
37.	007331	M/s. Pintoo Travels Private Limited
38.	040723	M/s. Poojan Weaves Private Limited
39.	042545	M/s. Pratham Books and Periodical Private Limited
40.	025012	M/s. Premium Buildcon Private Limited
41.	019552	M/s. Raj Philtex Private Limited
42.	017589	M/s. Rajdeep Laboratories Limited
43.	005991	M/s. RIB Engineers Private Limited
44.	038197	M/s. Sarjan Petroleum Private Limited
45.	031148	M/s. Shant Build-Con Private Limited
46.	046671	M/s. Shlok Electrotek Private Limited
47.	028148	M/s. Shree Prabhu Developers Private Limited
48.	015940	M/s. Shresth Land Developers Private Limited
49.	002136	M/s. Shri Brijraj Investments and Estates Private Limited

1	2	3
50.	042107	M/s. Shri Hari Trade Link Private Limited
51.	012608	M/s. Shri Hiralaxmi Builders Private Limited
52.	012445	M/s. Shriram Aluminiums Private Limited
53.	030573	M/s. Silo Health Care Private Limited
54.	026549	M/s. Small Entrepreneurs Marketing Private Limited
55.	029244	M/s. Spandan Finance Private Limited
56.	022361	M/s. Sunrise Fintrade Private Limited
57.	036689	M/s. Synergies Exposition Limited
58.	035636	M/s. Vijay Agroplant Private Limited
59.	047721	M/s. Vikrant Infrastructure Private Limited
60.	016314	M/s. Yug Sarathi Implex Private Limited
61.	045331	M/s. Yuri Cotton Seeds Oil Private Limited
62.	021228	M/s. Zak Impex Private Limited

R. K. DALMIA
Registrar of Companies (I/C)
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ahmedabad-380013, the 20th May 2011

No. RoC/Guj/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	042717	M/s. Aal Auto Private Limited
2.	005078	M/s. Agan Investment Private Limited
3.	034805	M/s. Aleef Minerals Chem Private Limited
4.	028598	M/s. Alka Cotspin Limited
5.	041086	M/s. Alliance Transport Company Private Limited
6.	045139	M/s. Amar Pesticides Private Limited
7.	002512	M/s. Amar Textiles Private Limited
8.	028067	M/s. Amit Granite Private Limited
9.	023214	M/s. Anadkat Holdings Private Limited

1	2	3
10.	048199	M/s. Anand Professional Services Private Limited
11.	002655	M/s. Anil Polyethelene Industrial Private Limited
12.	005077	M/s. Anugat Investment Private Limited
13.	018500	M/s. Arianne Maritime and Logistics Private Limited
14.	012839	M/s. Assurgent Transport and Contruction Private Limited
15.	052418	M/s. Astron Cera Private Limited
16.	013226	M/s. Avdhesh Builders Private Limited
17.	035199	M/s. B. M. Patel Constructions Private Limited
18.	046427	M/s. Basic E-Trade Services Private Limited
19.	042844	M/s. Brilliant Learning Resources Private Limited
20.	002470	M/s. CH Min Chem Private Limited
21.	048032	M/s. C. G. Distribution Private Limited
22.	019409	M/s. Citizen Coil Company Private Limited
23.	051657	M/s. Citron Laboratories Private Limited
24.	037174	M/s. Colour Polyblends Private Limited
25.	045054	M/s. Cryo Energy Systems Private Limited
26.	020809	M/s. Crystal Woven Fabrics Limited
27.	011005	M/s. D. N. Synthetics Private Limited
28.	029528	M/s. Dakle Agri Tech Private Limited
29.	031532	M/s. Dalal and Shah Securities Private Limited
30.	025584	M/s. Danish Properties Private Limited
31.	009420	M/s. Dastan Leasing and Finance Limited
32.	033118	M/s. Deepshanti Finstock Limited
33.	048781	M/s. Devam Alum Private Limited
34.	020490	M/s. Devdarshan Agrofarm Private Limited
35.	027320	M/s. Dhanlaxmi Securities Private Limited
36.	043455	M/s. Dhritideep Engineers Private Limited
37.	032916	M/s. Dinesh Capital Private Limited
38.	029933	M/s. Divya Petrochemical Limited
39.	029164	M/s. Divyaraj Construction Private Limited
40.	033713	M/s. Divyashakti Metal Craft Private Limited
41.	029447	M/s. Embisha Finance Limited

1	2	3
42.	034030	M/s. First Light Chemicals Private Limited
43.	044636	M/s. Fourmen Impex Private Limited
44.	038543	M/s. Galaxy Micro Infocomp Private Limited
45.	020201	M/s. Galaxy Tech Private Limited
46.	002418	M/s. Gandhi Minierals Private Limited
47.	002848	M/s. Gandhi Salt Private Limited
48.	033585	M/s. Giriraj Electrical Private Limited
49.	042753	M/s. Glider Merecantile Services Private Limited
50.	028670	M/s. Graph Developers and Investment Private Limited
51.	023655	M/s. Gujarat Acrylics Private Limited
52.	039623	M/s. Gujarat Positra Port Plantations Limited
53.	038657	M/s. Gurudev Markeing Private Limited
54.	041801	M/s. HH Agri Centre Private Limited
55.	018338	M/s. Halar Holdings Private Limited
56.	038015	M/s. Harbhole Development and Investment Private Limited
57.	023038	M/s. Hardik Finstock Services Private Limited
58.	011396	M/s. Hari Om Construction and Water Proffing Company Private Limited
59.	035794	M/s. Haroods Garments Private Limited
60.	016489	M/s. Harsh Silk Tex Private Limited
61.	017829	M/s. Hemson Metallicca Process Private Limited
62.	045983	M/s. Ichhapore Hitech Park Private Limited
63.	037653	M/s. IT Outsourcing Private Limited
64.	019871	M/s. Kamlani Synthetics Private Limited
65.	030960	M/s. Kapadia Shelters Private Limited
66.	031434	M/s. Kavan Chemicals Private Limited
67.	028746	M/s. Kelvin Polymers Private Limited
68.	045084	M/s. Keshav Marketing Private Limited
69.	037416	M/s. Kintech Infosystem Private Limited
70.	021303	M/s. Kothari Securities Limited
71.	017157	M/s. Krishna Network Private Limited
72.	020703	M/s. Kruti Texturisers Private Limited
73.	022391	M/s. Lotus Decor Private Limited

1	2	3
74.	008741	M/s. Lux Auto Drive and Sales Private Limited
75.	041417	M/s. Maharshi Consultants Private Limited
76.	019654	M/s. Mahavir Resins Private Limited
77.	043702	M/s. Makson Marketing Private Limited
78.	014652	M/s. Mangla Housing Land Developers Private Limited
79.	041973	M/s. Mangrola Chemicals Private Limited
80.	033897	M/s. Marathon Lubricants Private Limited
81.	018741	M/s. Master Dhan Financial and Investments Services Limited
82.	004895	M/s. Medi Surgichem Private Limited
83.	015595	M/s. Mehta Air Travels Private Limited
84.	038978	M/s. Memsaab Prints (India) Private Limited
85.	018396	M/s. Meratwal Investments and Finance Private Limited
86.	033421	M/s. Moksha Yarn Dynamics Private Limited
87.	038727	M/s. Mynative Com Internate Services Private Limited
88.	041969	M/s. N G Home Appliances Private Limited
89.	030866	M/s. Narayan Heat Controls Private Limited
90.	038327	M/s. Narmada Multipipe Limited
91.	013537	M/s. Nasan Investments Private Limited
92.	040506	M/s. Navjivan Contract Company Private Limited
93.	027997	M/s. Neelraj Construction Private Limited
94.	045874	M/s. OCA Outsourcing Private Limited
95.	031664	M/s. OGADJI Plantations Private Limited
96.	046483	M/s. Omshiv Exim Private Limited
97.	033620	M/s. Ornate Packaging Private Limited
98.	011134	M/s. Overseas Engineering Company Private Limited
99.	038026	M/s. PR Agropducts Private Limited
100.	013204	M/s. Paghadi Products Private Limited
101.	020438	M/s. Paramsukh Texturisers Private Limited
102.	029069	M/s. Poojan Fabrics Private Limited

1	2	3
103.	019209	M/s. Prabhu Estate Developers Private Limited
104.	022727	M/s. Prana Advertising and Marketing Private Limited
105.	002066	M/s. Pravin Investment Limited
106.	041983	M/s. Precise Trading Private Limited
107.	016752	M/s. Protech Home Appliances Limited
108.	007562	M/s. Protech Investments and Finance Limited
109.	038278	M/s. Pyramid Organisers Private Limited
110.	011410	M/s. Qualitex Texturisers Private Limited
111.	007298	M/s. Rajavir Finance Private Limited
112.	009943	M/s. Rajavir Housing Finance Private Limited
113.	039670	M/s. Rhea Info Solutions Private Limited
114.	027232	M/s. S. K. Share Services Limited
115.	030351	M/s. Sabras Creative Marketing Limited
116.	021278	M/s. Sabras Media Private Limited
117.	049671	M/s. Sahana Aviation Private Limited
118.	037157	M/s. Sahil Builders Private Limited
119.	047665	M/s. Sahjanand Metals Private Limited (TR From M)
120.	029516	M/s. Sai Designer Tiles Private Limited
121.	048082	M/s. Samshi Project Limited
122.	037723	M/s. Samudra Infotech Private Limited
123.	007510	M/s. Sanraj Silk Mills Private Limited
124.	031446	M/s. Sarita Oil Mill Private Limited
125.	033764	M/s. Sarvoday Metal Tubes Private Limited
126.	005351	M/s. Saumya Invesment Private Limited
127.	007842	M/s. Saurashtra Casteel Private Limited
128.	039339	M/s. Shalimar Hides Private Limited
129.	029659	M/s. Shatakshio Impex Private Limited
130.	033570	M/s. Shikhar-Gujarat Pharmaceuticals Private Limited
131.	044398	M/s. Shilpa Life Style Private Limited
132.	039089	M/s. Shiralee Constructions Private Limited
133.	016540	M/s. Shivam Dyes and Chemicals Private Limited

1	2	3
134.	021346	M/s. Shivang Furnances ad Oners Private Limited
135.	012084	M/s. Shradha Automobiles Private Limited
136.	022661	M/s. Shree Agrasen Financing and Investment Private Limited
137.	038571	M/s. Shree Ambica Agro and Dairy Products Private Limited
138.	019947	M/s. Shree Axarpati Texturisers Private Limited
139.	009224	M/s. Shree Shantinath Silk Mills Private Limited
140.	015054	M/s. Shreyas Steels and Alloys Private Limited
141.	041545	M/s. Shri Gurudev Auto Super Market Private Limited
142.	023878	M/s. SHri Krishna Leasing and Finance Limited
143.	039071	M/s. Shri Pradip Pollucarb Private Limited
144.	045990	M/s. Shrirang Textiles Limited
145.	032656	M/s. Shubhsagar Buildcon Private Limited
146.	044107	M/s. Shyam Creators Private Limited
147.	037681	M/s. Sidhdhi Infosys Private Limited
148.	010820	M/s. Silpa Consolidated Funds Private Limited
149.	022837	M/s. Sirali Texturisers Private Limited
150.	012235	M/s. Skubid Enterprise Private Limited
151.	031887	M/s. Solarson Iwasaki Lighting Limited
152.	037628	M/s. Solid Source Infotech Private Limited
153.	004286	M/s. Spark Steel Rolling Private Limited
154.	047914	M/s. Stylus Enterprise Private Limited
155.	045784	M/s. Sun Flower Fertility Clinic Private Limited
156.	021828	M/s. Sun Systems Private Limited
157.	025582	M/s. Sundaram Properties Private Limited
158.	048679	M/s. Sunshine Classes Education and Management Private Limited
159.	029237	M/s. Supertech Cartons Private Limited
160.	020308	M/s. Suril Steel Mills Private Limited
161.	042224	M/s. Suvarna Multilink Services Private Limited
162.	002521	M/s. Sveta Detergents and Chemicals Private Limited

1	2	3
163.	043018	M/s. Tara Insurance Services Private Limited
164.	045788	M/s. Tathagat Chem Impex Private Limited
165.	046015	M/s. Than Sez Development Private Limited
166.	020778	M/s. The Kandla Bulk Cargo Carrier Limited
167.	030601	M/s. Unity Developers Private Limited
168.	045988	M/s. V. K. Cargomovers Private Limited
169.	044470	M/s. V. Care Management Consultancy Private Limited
170.	021910	M/s. Vardhaman Constructions and Holdings Private Limited
171.	012342	M/s. Vasupujya Consultancy Services Private Limited
172.	036205	M/s. Vee-Aar Buildwell Private Limited
173.	025168	M/s. Vibhuti Oxygen Private Limited
174.	028725	M/s. Wellkown Organisers Limited
175.	041513	M/s. Wide Wings Multilink Private Limited
176.	048097	M/s. Winners Trade Expo Private Limited
177.	041885	M/s. Yogeshwar Psyllium Private Limited

R. K. DALMIA
Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ahmedabad-380013, the 1st October 2011

No. RoC/Guj/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	045483	M/s. Abhivandan Exim Private Limited
2.	013804	M/s. Achman Investments Private Limited
3.	028507	M/s. Adeshwar Agroispat Private Limited
4.	029070	M/s. Adinath Fincap Private Limited
5.	032895	M/s. Aishwarya Motels Private Limited

1	2	3
6.	020101	M/s. Ajeet Buildsteel Private Limited
7.	026842	M/s. Akshar Builders Private Limited
8.	021555	M/s. Anandvatika Plantation Private Limited
9.	043475	M/s. AVI Bulk Carrier Private Limited
10.	000740	M/s. Bhavnagar Rayon Mills Private Limited
11.	005263	M/s. Carding Specialist Co. (Gujarat) Private Limited
12.	038643	M/s. D M Jewellery Manufacturing Private Limited
13.	028307	M/s. Devanhshi Securities and Finance Private Limited
14.	033600	M/s. Dhru Carrier Private Limited
15.	037361	M/s. Dhru Cars Private Limited
16.	026290	M/s. Diamond Motors Private Limited
17.	039389	M/s. Electro Founders and Engineers Private Limited
18.	008701	M/s. Fadnis Mangalwadi Private Limited
19.	038434	M/s. G. G. Pael Reality Private Limited
20.	033175	M/s. Gayatri Krupa Rasayan Private Limited
21.	021556	M/s. Gokuldharm Plantation Private Limited
22.	021776	M/s. Gujarat Alumina and Bauxite Limited
23.	016284	M/s. Gujarat Mineral and Industrial Consultancy Services Limited
24.	028628	M/s. Harisons Yarns Private Limited
25.	029794	M/s. Heraj Marketing and Consultancy Private Limited
26.	046749	M/s. Hi-Bond Cement Private Limited
27.	039020	M/s. Inssonett Marketing Private Limited
28.	032976	M/s. Kothari Computech Private Limited
29.	038566	M/s. Lab-Tech Instruments Private Limited
30.	018948	M/s. Mahavir Cold Storage Private Limited
31.	013728	M/s. Manojshah Holdings Private Limited
32.	014083	M/s. Monica Fabrics Private Limited
33.	020756	M/s. Natures Care Private Limited
34.	009903	M/s. Neelu Investments Private Limited
35.	020413	M/s. Niraj Texturisers Private Limited
36.	013989	M/s. Oskar Fabrics Private Limited
37.	031635	M/s. Parthsarathi Realty Private Limited

1	2	3
38.	033923	M/s. Possum Exports Private Limited
39.	027644	M/s. Rajshree Finstock Limited
40.	045627	M/s. Rising Sun Beauty Private Limited
41.	034914	M/s. Rising Sun Infonet Private Limited
42.	011566	M/s. Rupal Construction Private Limited
43.	037556	M/s. Sensitive Heal Thcare Private Limited
44.	020711	M/s. Shaishav Vatika Private Limited
45.	038366	M/s. Shivam Complex Limited
46.	015024	M/s. Shree Radhakishana Dyeing and Printing Mills (Gujarat) Private Limited
47.	012193	M/s. Shyamal Properties Private Limited
48.	013287	M/s. Sushoni Jewels Private Limited
49.	039217	M/s. Suyog Hydraulics Private Limited
50.	000241	M/s. Tejaji Farasuram Kharawala Private Limited
51.	044961	M/s. Urmi Mamra and Rice Products Private Limited
52.	026224	M/s. Vincer Plastics Private Limited
53.	040684	M/s. Vitrak Marketing Private Limited
54.	050686	M/s. Wealth Link Services Private Limited

R. D. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Ahmedabad-380013, the 1st October 2011

No. RoC/Guj/560(5)/EES-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	033676	M/s. Aayush Irofab Private Limited
2.	041662	M/s. Adorn Technologies Private Limited
3.	010519	M/s. AJS Agro Machines Private Limited
4.	010034	M/s. Allwell Red-Mud Products Private Limited
5.	023140	M/s. Alpesh Metals Private Limited

1	2	3
6.	041987	M/s. Ameya Healthcare Private Limited
7.	015693	M/s. Ankur Filaments Private Limited
8.	031084	M/s. Artisans Engineering Company Private Limited
9.	049408	M/s. Bharuch Dahej Road Limited
10.	045850	M/s. Chintan Chemicals Private Limited
11.	016138	M/s. Citizen Technofab Private Limited
12.	019435	M/s. Comet Synthetics Private Limited
13.	008775	M/s. D Dhirubhai Investment Company Private Limited
14.	039652	M/s. Dhaval Infrastructure Private Limited
15.	036544	M/s. Dhumraketu Builders Private Limited
16.	047885	M/s. Dipex Textile Private Limited
17.	040044	M/s. Dolphin Infrastructure Private Limited
18.	031751	M/s. Elite Children Park Private Limited
19.	014864	M/s. Excel Travels Limited
20.	052461	M/s. First Care Broking Services Private Limited
21.	026855	M/s. Feshdrop Plantations Private Limited
22.	039769	M/s. Frontech Communications Private Limited
23.	014302	M/s. Galaxy Flats Private Limited
24.	015065	M/s. Galaxy Show Biz Private Limited
25.	034526	M/s. Ghanshyam Fincap Private Limited
26.	018932	M/s. Glon Laboratories Limited
27.	021190	M/s. Gujarat Airways Limited
28.	004909	M/s. Gujarat Drill Bits Private Limited
29.	032623	M/s. Gujarat National Highways Limited
30.	004918	M/s. Gujarat Precious Stones Private Limited
31.	004912	M/s. Gujarat Sawn Brilliants Private Limited
32.	004916	M/s. Gujarat Single Cut Polisher Private Limited
33.	024972	M/s. H B Builders Private Limited
34.	046093	M/s. H. S. Machine-Well Private Limited
35.	032554	M/s. Hira Tulsi Finlease Private Limited
36.	043609	M/s. Hit Iron and Steel Private Limited
37.	041927	M/s. Innovation Time Services Private Limited

1	2	3
38.	031995	M/s. Innovation Polyplast Private Limited
39.	033569	M/s. Ishwarlal Col-Plast Private Limited
40.	010111	M/s. J D Components Private Limited
41.	050569	M/s. Jai Madi Hotels Private Limited
42.	047941	M/s. Jainam Garments Private Limited
43.	030220	M/s. Jasal Realities Private Limited
44.	017354	M/s. Jayraj Weaves Private Limited
45.	043017	M/s. Kaneria Glass and Ceramics Private Limited
46.	038570	M/s. Karnavati Decogrills (India) Private Limited
47.	020649	M/s. Khushbu Polyester Private Limited
48.	036861	M/s. Kingston Technofab Private Limited
49.	040439	M/s. Kuber Network Private Limited
50.	039211	M/s. L. J. Engineers Private Limited
51.	018574	M/s. LMP Housing and Developers Private Limited
52.	007081	M/s. Mack Savings and Finance Limited
53.	028304	M/s. Mahashakti Transtrade Private Limited
54.	006321	M/s. Mahendra Technocast Private Limited
55.	031304	M/s. Manali Developers Private Limited
56.	009210	M/s. Manish Gum Industries Private Limited
57.	020417	M/s. Matchwell Enterprise Limited
58.	016807	M/s. Mehtab Engineering Private Limited
59.	027513	M/s. Mercury Ceramics Private Limited
60.	042202	M/s. Milacron Clothing Private Limited
61.	023533	M/s. Mitsu Electronics Private Limited
62.	016623	M/s. Myco Synthetics Private Limited
63.	038019	M/s. Net World Communication Private Limited
64.	049153	M/s. New Idea Solutions Private Limited
65.	023264	M/s. New Texfil Private Limited
66.	047980	M/s. Organ Teleservices Private Limited
67.	040034	M/s. Parshwa Retails Private Limited
68.	007234	M/s. Pawagadh Cements Private Limited
69.	032251	M/s. People Infotech Private Limited

1	2	3
70.	000174	M/s. Poorna Polyconductors Private Limited
71.	024015	M/s. Prashantdeep Properties Private Limited
72.	029988	M/s. Prashil Exim Private Limited
73.	014347	M/s. Raas-Garba Exim Private Limited
74.	038326	M/s. Raghuvir Motels Private Limited
75.	012149	M/s. Raghivr Marketing Limited
76.	042056	M/s. Rajendra Infrastructure Private Limited
77.	042355	M/s. Ramayan Fabrics Private Limited
78.	030384	M/s. Ramya Organisers Private Limited
79.	025536	M/s. Ranbart Denim Apperals Private Limited
80.	029808	M/s. Relin Healthcare Private Limited
81.	022873	M/s. Riddhi Finstock and Leasing Private Limited
82.	013367	M/s. Rushabh Chemicals Limited
83.	030986	M/s. Rushabh Plasti-Chem Private Limited
84.	010000	M/s. Sahyog Intermediates Private Limited
85.	042703	M/s. Samarpan Hospitality Services Private Limited
86.	038121	M/s. Satellite Hospital and Physiotherapy Research Centre Private Limited
87.	031698	M/s. Servewell Products Private Limited
88.	018368	M/s. Shree Rama Krishna Rayons Private Limited
89.	026743	M/s. Shrijit Properties Private Limited
90.	012243	M/s. Sonam Textiles Private Limited
91.	048828	M/s. Space Optical Private Limited
92.	040890	M/s. Span Solutions Private Limited
93.	021849	M/s. Spice City Private Limited
94.	031358	M/s. Suman Realities Private Limited
95.	023268	M/s. Super Mart Holdings Private Limited
96.	006803	M/s. Supreme Submersible Manufacturing Private Limited
97.	031595	M/s. Swati Plant Care Private Limited (Transferred From New Delhi)
98.	051103	M/s. T & T Solutions Private Limited
99.	022267	M/s. Tatkall Telephones Private Limited
100.	006937	M/s. Team Hydraulic and Allied Machineries Private Limited

1	2	3
101.	009793	M/s. Texelite Industrial Engineers Private Limited
102.	010277	M/s. Tirupati Warps Private Limited
103.	023546	M/s. Toral Constructions Private Limited
104.	006822	M/s. Translink Private Limited
105.	032318	M/s. Uma Flow Surgical Private Limited
106.	021327	M/s. United Gravures Private Limited
107.	053075	M/s. Unnat Trading Private Limited
108.	035246	M/s. Vayuputra Salts Private Limited
109.	014916	M/s. Vetex Synthetics Private Limited
110.	035245	M/s. Vighnaharta Salts Private Limited
111.	035236	M/s. Vikram Salts Private Limited
112.	034320	M/s. Vipul Tradelink Exports Private Limited
113.	035237	M/s. Vir Salts Private Limited
114.	035300	M/s. Virtual Sound Private Limited
115.	023135	M/s. Yogi Foundation Private Limited
116.	040175	M/s. Zircon Systems Private Limited

R. D. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shyam Mingfeng Abrasive Private Limited

Ahmedabad-380013, the 5th October 2011

No. RoC/12067/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shyam Mingfeng Abrasive Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goodyear Holdings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 5th October 2011

No. RoC/12070/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goodyear Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Niketan Holdings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 5th October 2011

No. RoC/12073/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Niketan Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kochi-682021, the 26th September 2011

No. u/s.560(5)/FTE-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	13885	M/s. Chiramel Trades Private Limited
2.	14646	M/s. Impulse Online Systems Private Limited
3.	14808	M/s. Sastha Papers Private Limited
4.	16209	M/s. TVN General Trading Company Private Limited
5.	17517	M/s. Viswajyothi Traders Private Limited
6.	18029	M/s. PSK Thangal S Health Care Company Private Limited
7.	19035	M/s. Excel Hyper Home-Mart Kerala Private Limited

1	2	3
8.	19650	M/s. Saroni Tours and Resorts (India) Private Limited
9.	20225	M/s. MSJK Commodities Trading Private Limited
10.	20381	M/s. Kerala Sarvodaya Ayurveda Pharma and Research Centre Private Limited
11.	21833	M/s. Palathingal Construction and Realtors Private Limited
12.	22292	M/s. Kripa Touches Packaging Company (India) Private Limited
13.	22317	M/s. GRV Developers India Private Limited
14.	22729	M/s. Logon India IT Soutions Private Limited
15.	23033	M/s. ARB Quality Management Certification Services Private Limited
16.	23090	M/s. Aline Hotels & Tourist Management Private Limited
17.	23352	M/s. Tita Exports and Imports Private Limited
18.	23503	M/s. Rightroot Marketing Private Limited
19.	24221	M/s. Shrishti Manpower and Allied Services Private Limited
20.	24671	M/s. TPM Properties and Developers Private Limited
21.	24966	M/s. Novateur Trade Links Private Limited
22.	25235	M/s. KS Gold Private Limited
23.	25340	M/s. Babu Lodgings Hotels and Resorts Private Limited
24.	25801	M/s. Techresonance Technologies and Software Services Private Limited

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala